

निबन्ध-रत्नमाला



लेखिका

—पण्डिता श्री चन्दाबाई

कन्या-विद्यावलम्बिनी पुस्तक-माला का तृतीय पुष्प ।

The Indian Girl's Own Library—No. 3.

मूल्य दस आना ।

समर्पण ।

स्वार्थरहित हो निश दिन जो
परहित में तत्पर रहते हैं,
ज्ञान-सुधा-रस से अभिसिञ्चित
सब जीवों को करते हैं ।



जिनके पद-प्रसाद से मैंने
पाया जग में उजियाला,
जिनकी विमल-बिराग प्रभा से
हटा अविद्या-तम काला ।



बाल-ब्रह्मचारी विद्वद्वर
स्वामी श्री नेमी सागर,
उनके कर'कमलों से है यह
अर्पित भक्ति भेंट सादर ।

—चन्दा

रत्न-सूची ।

प्रकाशक का सन्देश	॥
भूमिका	॥
मानव-हृदय	१
पवित्रता	७
सद्ज्ञान	१३
सद्ब्यवहार	१८
आत्म पदार्थ	२२
स्वावलम्बन	३१
आत्मगुण	३६
धनदशा-दर्शन	४५
स्वदेश-सेवा	६७
स्त्रियों में उच्च विद्या	८२
मनुष्य-जन्म की दुर्लभता और ज्ञान की योग्यता	८६
समय की उपयोगिता	९४
शिक्षा	९८
प्राचीन आदर्श महिलाएँ	१०४
स्त्री-समाज में समाचार-पत्रों की आवश्यकता	११६
कन्या-महाविद्यालय	११६
विधवाओं का कर्तव्य	१२७
अशिक्षा की फल-स्वरूपिणी भगड़ा लू सास	१३३

प्रकाशक का सन्देश ।

न्यारी शिक्षा-रत्न की नवल निराली माल ।
प्यारी बहिनो प्रेम से लो स्वकण्ठ में डाल ॥

— वनलता

परम सन्तोष और हर्ष के साथ, 'कन्या-विद्याचलम्बिनी पुस्तकमाला' का यह तृतीय पुष्प स्त्री-शिक्षा-प्रेमियों और विद्यागुरा-गिणी माता-बहनों के साहित्य-संसार में प्रेषित करता हूं। दिश्वाम है कि माला के प्रथम (उपदेश-रत्न-माला) और द्वितीय (सौभाग्य रत्न-माला) पुष्पों ने जिस प्रकार अपने पवित्र और दिव्य सौरभ से साहित्य-क्षेत्र को आमोदित किया है उसी प्रकार यह नवीन पुष्प भी साहित्य-वाटिका की शोभा-वृद्धि करेगा। महिला-भण्डाली में पूजनीय माताजी के पुष्ट विचारों ने बड़ी सुर्वाचि और सद्भाव पैदा कर रक्ता है। हमें पूर्ण भरोसा है कि यह पुस्तक वस्तुतः नारी समाज का थकेट हित साधन करेगी। आशा है, कि यह उपहार स्त्री-संसार में वास्तविक ज्ञान और आनन्द की वृद्धि करके हमारा मन्तव्य सिद्ध करेगा तभी इस रत्नत्रय का प्रेमोपहार भगिनिदे और माताओं को भेंट करके हम हृतकृत्य होंगे पुस्तक के अन्त में अपने प्रिय मित्र गिरीश जी 'रत्न-रत्न-वन' से एक कविता 'शिक्षा की फलस्वरूपिणी भगिनी सास' उद्धृत की जाती है। आशा है प्रिय बहने लाभ उठावेंगी।

प्रेममन्दिर


द्वारा ।

२०-६-२६

दिनवाचन—

देवेन्द्र

भूमिका ।



माननीय वाचकवृन्द !

यह पुस्तक उन निबन्धनों का संग्रह है जो कि भिन्न भिन्न सामयिक जैन, अजैन पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। कई भिन्नात्माओं के अनुरोध से तथा स्त्री-समाज में ऐसी पुस्तकों की कमी देखकर ही इनका संग्रह किया गया है। ये प्रत्येक लेख यद्यपि अपने अपने विषय में स्वतन्त्र है तो भी 'स्त्रियों में सद्बिद्योन्नति हो' यही सर्वों का अन्तिम परिणाम निकलता है।

इस पुस्तक के पढ़ने से छात्राओं को निबन्धनों की रचना करने में तथा व्याख्यानशैली के जानने में भी सुविधा होगी ऐसी आशा की जाती है। इसमें स्वदेश-सेवादि कई लेख ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध किसी खास धर्म से नहीं है बल्कि समस्त जनता के हितार्थ लिखे गये हैं।

कई लेख आत्म-पदार्थादि ऐसे भी हैं जो धार्मिक दृष्टि से लिखे गये हैं। तो भी पुस्तक को अध्ययन करनेवाले व्यक्ति को चाहिए वह किसी मत का क्यों न हो कुछ न कुछ श्रद्ध्येय पदार्थ अवश्य मिल जायगा।

साहित्य-संसार में नाना प्रकार के अगणित पुष्प खिल रहे हैं और उनका सौरभ भी विविध प्रकार का ही अनुभूत होता है।

जिस प्रकार अलंकार-शास्त्र रसास्वाद कराता है तथा पद्यावली हृदय में तरंग उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार नैतिक शास्त्र मनुष्य में नीति उत्पन्न कर देता है।

इस माला के नैतिक निबन्धों से भी हमारी बहिनों को प्रवरय कर्तव्य-ज्ञान की शिक्षा मिलेगी, एवं उवादर्श हृदय में स्थान पाएगा ।

इन लेखों की भाषा एवं भाव में बहुत सा अन्तर प्रतीत होगा, बहुत सम्भव है कि एक बात एवं एक भाव कई बार कई तरह से कहा गया हो और सब लेखों का सम्बन्ध भी नियमबद्ध न हो क्योंकि यह लेख भिन्न भिन्न समयों में लिखे गये हैं, इन में कोई कोई बहुत पुराने भी हैं । समय के साथ साथ मनुष्य की भाषा और विज्ञान में हेर फेर होना स्वाभाविक नियम है, अतएव सज्जन पाठक एवं पाठिका वृन्द इन लुटियों को क्षमा करेंगी । तथा पुस्तक को अपनाकर मुझे उत्साहित करेंगी ।

वाचक वृन्दों की असीम भक्ति के कारण यह निबन्धरत्नमाला पुनः प्रकाशित होती है इसमें कुछ संसोधन तथा परिवर्तन कर दिया गया है । आशा है पाठक पाठिकाओं को रुचि कर होगा, और इससे लाभ उठाएँगी । इस पुस्तक के अध्ययन से कितनी ही विद्यार्थिनियों को उपदेश देना, लेख लिखना आ गया है; व हर कन्या पाठशालाओं में और महिलाश्रमों में पढ़ाई जाती है । अतएव इस की माग बहुत दिनों से थी, परन्तु उत्साही प्रकाशक देवेन्द्र प्रसाद के वियोग होने से इसके संस्करण के निकलने में विलम्ब हो गया, पाठक क्षमा करें ।

शुभ चिन्तिता
चन्दा बाई जैन,



निबन्ध-रत्नमाला ।

मानव-हृदय ।



भाव से ही मानव-हृदय कोमल और सरस विचारों का केन्द्र होता है। यदि इसको स्वविचारों के आश्रय पर छोड़ दिया जाय तो यह बुराइयों को करने की प्रेरणा कदापि न करे। कोई कौसा ही पापी क्यों न हो, कितने ही बुरे कर्मों को क्यों न करता हो, परन्तु यदि एकान्त में वह अपने दिल को आराम देकर पूछे तो घृणित वस्तु की ओर से घृणा ही उत्पन्न होगी। जितने समय तक कु-सङ्गति का प्रभाव रहता है उतने ही समय तक हृदय भी घृणित विषय की ओर प्रेरणा करता है। तभी तक अमानुषिकता का व्यवहार होने देता है। परन्तु यदि इसको सर्व अपवित्र वस्तुओं के संसर्ग से दूर रक्खा जाय तो प्रकृति के अनुकूल सत्कार्यों का ही उपदेश देगा।

जिस तरह कपड़े में मैल लग जाता है वथवा जिस तरह घर-द्वार मैले कुचैले हो जाते हैं उसी तरह मानव-हृदय भी सांसारिक वासनाओं से लिप्त होते होते मैला हो जाता है, इसी से वह स्वकार्य करने में असमर्थ होकर एक धीमी चाल से सांसारिक विषय-भोगों में ही अपनी विचारशक्ति को शेष करता रहता है । जिस प्रकार बख्वादिके शुद्ध करने की या घर-द्वार के उज्ज्वल करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हृदय-दर्पण को भी समय समय पर साफ़ करने की आवश्यकता है ।

सब वस्तुओं के शुद्ध करने की विधि पृथक् पृथक् हैं, उसी तरह मन के स्वच्छ करने की रीति भी निराली है ।

मन से असाध्य पर काम न लेकर स्वच्छ विचारों में उसे स्वच्छन्द छोड़ देने से उसकी गति निर्मल रहती है और तभी वह योग्य विषयों में गगण भी कर सकता है । थोड़े समय तक एकान्त में रहकर चित्त को आत्मविचार में घुसाने से यथार्थ ज्ञान वीन करने या अग्रसर पाकर वह सुलभने लगता है और फिर धीरे धीरे शुद्ध भी होने लगता है ।

जिन मनुष्यों ने हृदय की गति धुंधारना नहीं सीखा उनके सब कार्य उलट-पलट हो जाते हैं, और इसलिये जिधर संसार की धारा बहती है उधर ही वे लोग बह

मानव-हृदय ।

निकलेते हैं । जिस तरह भूमंडल का पानी समुद्र में जाता है, उसी तरह अनेक हृदयों का प्रवाह विषय-सागर में जाता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने हृदय की गति सरल रखने का उपाय करे । इसके लिये हर समय अच्छी अच्छी पुस्तकों को अवलोकन करते रहने की आवश्यकता है जिससे हृदय मैला न हो । जिस शुभ कार्य को करना हो उसका चिन्तन सदैव करे, तभी चित्त अनुकूल हो कर उसको करने देगा । यदि विचार में कर्त्तव्य को नहीं रखा जाय तो चिन्तन किया हुआ कार्य कदापि निर्दिष्ट समाप्त न हो सकेगा । चाहे वर्तमान में योग्यता न भी हो, किसी तरह की रुकावट भी हो; परन्तु उच्च विचारों से मुँह न मोड़ना चाहिये । सदैव बड़े बड़े कठिन से कठिन कार्यों को करने की इच्छा रखनी चाहिए । मनुष्य जब सौगुना लोचता है तब एक गुना कर सकता है । और यदि विचारों में ही दृढ़ता-हीन हो जाता है तब कुछ नहीं कर सकता ।

आदर्श जीवन बनाने के पहले आदर्श हृदय बनाना चाहिये । जो हृदय निष्कम्प है, जिसको कायरता हिला नहीं सकती वही आदर्श बन सकता है । जिस हृदय में चञ्चलता भरी है । जो जरा सी घात के सुनने से डामा-डोल हो जाता है, जो थोड़े से कष्ट को देखकर पीछे हटता

है तथा विचार-शून्य होकर कार्यक्रम में बाधा डालता है, वह हृदय कदापि उच्च श्रेणी पर नहीं चढ़ने देता । इसी प्रकार जो ज़रा सी बड़ाई में फूल उठता है, थोड़ी सी नाम-वरी के लिये कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार छोड़ पैठता है वह हृदय भी इसी भगड़े में मर मिटता है । परन्तु जो स्व-विचारों को उच्च बना कर अपने कर्त्तव्य पर ध्यान रखता है वही आदर्शरूप होता है । मनुष्य के जितने कार्य विगड़ते हैं वे सब हृदय की दुर्बलता के कारण ही नष्ट होते हैं ।

इस हृदय-दीर्घल्य ने जन-समाज का कितना सत्यानाश कर रखा है, इसका लिखना मनुष्य की शक्ति के बाहर है । प्रथम तो भारत ऐसे पुराने देश में सर्वत्र ही इसका राज्य है, परन्तु जिन लोगों में विद्या-शिक्षा की कमी है वहाँ तो कहना ही क्या है । तिरियों का तो यह भ्रूषण ही समझा जाता है कि वे अपने हृदय को कभी दिलने न दें, उसमें ज़रा भी बाहर की हवा न लगने दें, वरन् विचार-शून्य डिविया में जवाहरात की तरह पन्द रखें और अपने अपने मर्दों के दिल के सहारे सहारे अपने सब काम करें । ऐसी अवस्था में देवयोग से घर के पुत्र यदि वहीं रहें, घ होते हुए भी विदेशादि चले जाते हैं तो उन वैचारियोंको दूररे गठे बुरे मनुष्यों के शिक के सहारे काम करना पड़ता है । यही कारण है कि तिरियों में स्वगति का विशेष प्रभाव

मानव-हृदय ।

पड़ता है। एक मनोबल के नष्ट-भ्रष्ट होने से समस्त बल निष्फल हो जाते हैं। सारे बलों में मनोबल प्रधान है। इसलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सबको अपने हृदय की गति को दृढ़ तथा सुयोग्य रखने का यत्न करना चाहिये। स्वार्थ-परता से दूर रह कर अपनी आत्मा की अनन्त शक्ति पर विचार करते करते मन सुदृढ़ हो जाता है और जो कार्य कल पहाड़ दीखता था वह आज हवा सा दीखने लगता है, जिस जगह भय लगता था वही आनन्द मिलने लगता है।

लौकिक और पारलौकिक उभय स्थलों में सुदृढ़ हृदय विजय-लाभ करता है। दृढ़-चित्त मनुष्यों को क्षय-रोग, उन्मत्तता, मूर्छा आदि रोग नहीं सुताते। मरते मरते भी उन के होश हवास ठीक रहते हैं तथा वे ही लोग स्थिर होकर आत्म-कल्याण और परोपकार कर सकते हैं।

दृढ़-चित्त वाला मनुष्य ही आनन्द का लाभ उठाता है। सदा प्रफुल्लित रहना बहुत अच्छी बात है। किसी रंज और दुःख को कभी हृदय में अधिक समय तक ठहरने न देना चाहिये। जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शोक-मुक्त हो जाना चाहिये। शोक करने से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, शरीर क्षीण हो कर बुद्धि मन्द हो जाती है। भारतवर्ष में इस समय दुःखी रहने की प्रथा चल गई है। स्त्रियाँ तो मुंह लटकाये रहने में ही गम्भीरता समझती हैं, परन्तु यह अज्ञान

है। शोकमय रहना अत्यन्त हानिकारक है, इसलिये महिलाओं को सदा प्रसन्न-चित्त और हंस-मुख रहना उचित है। ज़रा ज़रा सी विपत्तियों को हंसकर भूल जाना और निजानन्द-मय रहना ही मानव-हृदय का सार है।



पवित्रता ।



नव-जीवन का 'पवित्रता' एक बड़ा भारी मुख्य अङ्ग है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सबके साधन में प्रथम इसी का आदर करना पड़ता है। अतः इस पवित्रता पर हमारी सुझ बहिनों को कुछ विशेष विचार करना चाहिए। हमारे जैनाचार्यों ने प्रत्येक नियम ऐसा निर्धारित किया है जिसमें पवित्र भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं। परन्तु वर्त्तमान में हम लोगों ने केवल स्नान, लेपन, साबुन लगाना इत्यादि बातों में ही इस पवित्रता-देवी को शेष कर रक्खा है। यह बड़ी मूर्खता है। पवित्रता यथार्थ में कुछ और वस्तु है—मनुष्य के प्रत्येक वर्त्ताव में नियमानुकूलता और सदाचरण ही पवित्रता की जड़ है। पापरहित सद्गुण-सहित परिणामन का नाम ही पवित्रता है, यह तीन मार्गों से मनुष्य में प्रवेश करती है। मन द्वारा, वचन द्वारा, कर्म द्वारा। कोई

एक मार्ग रुका रह जाय तो पवित्रता अधूरी रह जाती है। इसमें भी मानसिक पवित्रता अन्य दोनों पवित्रताओं की जननी है, इसलिये सबसे पहले मनुष्य को अपना हृदय सरल और शुद्ध बनाना चाहिये ।

यदि कोई मनुष्य स्नानादि कर ब्रह्माभूषणों से लदकर कुकर्म, हिंसा, चोरी आदि के विचारों में मग्न बैठा हो, तो वह बाह्य में साफ सुथरा होने पर भी, महामलिन अपवित्र है, क्योंकि उसके पास मानसिक पवित्रता नहीं है ।

सदैव उदारचित्त रहना, चित्त में परोपकार करने की वासना रखना, सब जीवों से प्रेम रखना ये बातें मानसिक पवित्रता की सखी हैं । जो हृदय ट्रेप-फूट-कलह-व्यसनादि से अलग है वही पवित्र है ।

इसी तरह परनिन्दा-रहित जुगली और असन्ध-रहित हितकर वचन बोलना पवित्र वचन है ।

भ्रूठ बोलना, कठोर वचन बोलना, गाली देना इत्यादि बातें वाचनिक पवित्रता का नाश करती हैं । पवित्रता के झल्लुक लीच कदापि अपने वचनों को मलिन नहीं होने देते ।

इसी तरह तीसरी क्रियाजन्य पवित्रता यह है जो उत्तमोत्तम कार्यों के करने से आती है । पापरहित प्रवृत्ति ही वास्तव में पवित्रता है ।

यदिनो, हमें अपने मन, वचन, कर्म सदैव पवित्र रखने

पवित्रता ।

उचित हैं।

जो स्त्री मायाचार रखती है, हर बात को ^{पति-पुत्रादि} से छिपाती है और दूसरे कुटुम्बियों से ईर्ष्या, द्वेष करती है वह पवित्र हृदय की भागी नहीं है। ऐसा न कर अपना मन स्वच्छता की ओर खींच कर निर्मल रखना चाहिये।

समय पर भोजन, समय पर पान, यथासमय पर सर्व कार्य कर वचे समय को परोपकार के विचार में और उपाय में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धार्मिक तथा परोपकारक कार्यों में थोड़ा भी अपना समय लगाकर हृदय को पवित्र वायु-सेवन करा देते हैं उनका हृदय पवित्र रह सकता है। इसलिए बहिनो! आपस को फूट मिटा कर एकता का प्रचार करना चाहिये। कुभोजन, रात्रि-भोजन, बाजार का अपवित्र भोजन छोड़ स्वहस्त से बनाकर स्वच्छ ऋतु अनुकूल भोजन करना चाहिए। इसी तरह स्वच्छ वस्त्र धारण कर उज्ज्वल शरीर रख बाह्य पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए।

यह पहले कहा जा चुका है कि पवित्रता का संबंध एक बात से नहीं है वरन् प्रत्येक कर्म से है। अतः हर एक काम पर ध्यान रखना उचित है। जैसे बरतन को माँज कर पवित्र रखना, गृह को झाड़ कर पवित्र रखना, भोजन को शुद्धता से बना कर पवित्र रखना, इसी तरह धन के

दान कर पवित्र रखना चाहिए । यदि गृह भाड़ा पौछा न जाय तो गंदा हो जाता है, उसी तरह यदि धन केवल भोगोपभोग में ही खर्च कर दिया जाय व गाड़ कर रक्खा जाय और दान में न लगाया जाय तो गन्दा हो जाता है । अतः हमको चाहिये कि पवित्रता के हेतु दान में खूब रुचि रखें—इसी तरह बल भी वही पवित्र है, जो दुःखी जीवों की रक्षा में लगाया जाय । ज्ञान भी वही पवित्र है जो शान्ति सुख देनेवाले विद्या, शिक्षा परोपकार और आत्मकल्याण के विचार में खर्च किया जाय ।

इस समय हम भारतवासियों का हृदयाकाश विषय-वासना के मेघों से घिर गया है—अपवित्र हो गया है, इसी कारण धनधान्य, धर्म-कर्म सबका हास होता जाता है । यदि शय भी हमलोग पवित्र-हृदय होकर स्वार्थ को हवन करके अपने धन का अधिकांश हिस्सा विद्या-प्रचार में तथा शिल्प-शिक्षा में लगावें तो उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं । देखो, विदेशी लोग अपने धन को दे डालना फौसी छोटी सी घात समझने हैं—करोड़ों रुपये लगाकर गरीब भाइयों को कारखाने खुला देते हैं । माल को फर्म क्रीमन से विकवाकर, रोजगार बढ़ा, स्वयं घाटा सह, देशवासियों का कल्याण करते हैं । यह जो विलायती शक्ति यहाँ इतनी स्वस्ती मिलती है—कहाँ ख्याल करे कि योरोप में मिट्टी की


तरह जहाँ तहाँ पड़ी हो सो नहीं है । वरन् लाखों रुपया का घाटा सहकर योरोपीय रियासतें स्वयं यहाँ भारत में लागत से कम कीमत पर बिकवाती हैं और भारतमाता के सुपुत्र, सस्ती समझ कर देशी महुँगी शक्कर को लात मार कर इसे रुचि से खरीदते हैं ।

कहिए, कहाँ तो विदेशियों का स्वदेश-प्रेम—धनत्याग और कहाँ हम लोगों का लोभ ! एक ही क्यों हमारे संपूर्ण बर्ताव अपवित्र हो रहे हैं । अमरीका के धनिकों के हज़ारों स्कूल-कालिज भारत में स्वधर्म-प्रचारार्थ चल रहे हैं—सैकड़ों कन्याशालाएँ चल रही हैं—देहरादून में, लखनऊ में कलकत्ते—बम्बई—लाहोर आदि भारत के सुप्रधान नगरों में २-२-४-४ हज़ार मासिक व्यय हो रहा है । उनके पठनालय में जाकर देखो तो क्रिश्चियन पोशाक, क्रिश्चियन बर्ताव, स्वधर्म का गुणानुवाद सर्वत्र नज़र आता है, देखो बहिनो, यह उनके स्वार्थ-त्याग और दान का ही फल है कि उनके धर्म और यश का डंका बज रहा है—परन्तु हम लोग जो धन और तन को अपवित्र रखने वाले धन को ज़मीन में गाड़ व व्याज पर देकर, गद्दे, तकियों पर दिन बितानेवाले हैं, उनका उद्धार कैसे हो ? बस उद्धार का एक यही मार्ग है कि अपने तन-मन-धन को अच्छे कामों की ओर झुका कर पवित्र कर डालो । तन को

पर-सेवा के लिये, मन को भगवद्भजन और धनको
 दान के लिए समझो । स्वार्थ की आहुति दे डालो ।
 स्वयं विद्या प्राप्त कर जगत् को सुखी और शान्ति-पूर्ण
 बनाने के लिये उपाय निकालो ।



सद्ज्ञान ।



दुज्ञान क्या वस्तु है। यह आत्मा को कितना अद्वितीय लाभ पहुँचाता है यह लिखना वा कहना मनुष्यशक्ति के बाहर है। इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि, धार्मिक स्वच्छता के साथ जो ज्ञान है वही सद्ज्ञान है, और यही सद्ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की जड़ है। मानव-जीवन के प्रत्येक समय के प्रत्येक व्यवहार में इस सद्ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। पुरुष हो वा स्त्री, बालक हो वा वृद्ध, सब की उन्नति इसी पर निर्भर है। जितने लौकिक वा पारमार्थिक काम दुनिया में है सब इसी के बल से यथेष्ट सम्पन्न हो सकते हैं। परन्तु खेद इस बात का है कि जो चीज़ जितनी ही लाभदायक होती है वह उतनी ही अलभ्य होती है, सर्व-साधारण-उसके-उप-याग में नहीं ला सकते। जो जो प्रभाव-शाली हैं वे हो ला सकते हैं। तीनों लोकों में सद्ज्ञान बड़ा दुर्लभ पदार्थ

है। तिम पर भी वर्तमान काल में तो अत्यन्त दुष्प्राप्य हो गया है।

अन्यान्य यूरोपादि देशों में ऊपरी (बाहरी) चमक दमकवाली सर्व चीज़ों का विकाश तेज़ी से हो रहा है, परन्तु इसका वहाँ भी अभाव है।

वर्तमान में हम लोग केवल ऊपरी बातों पर विश्वास किये बैठे हैं। सांसारिक स्वार्थीय ज्ञान को ही अपना मान बैठे हैं, परन्तु वह सद्ज्ञान नहीं है। सद्ज्ञान वह है जो जीवों को कदापि इस भव में कष्ट नहीं होने देता और अन्त में उसे ऐसे अनन्त सुख में रख देता है जहाँ पर कुछ भी कमी नहीं रहती, सर्व मनोविकल्प पूर्ण हो जाते हैं। क्षायिक सम्यक् दृष्टि जीव इस सद्ज्ञान को पूरी तरह से मौल ले लेता है, परन्तु जब तक क्षायिक सम्यक्त्व न हो तब तक इसको फ़ायम रखने में उसे बड़ी कठिनाई पड़ती है। यह सद्ज्ञान सदा परिदृष्टों के साथ भी नहीं रहता, न सदा धनाढ्यों के ही साथ रहता है, परन्तु जो इसकी भावना रखता है उसी के साथ रहता है। अतएव बहनों ! हम लोगों को भी सदैव इसकी भावना रखनी चाहिये। यह समय एक ऐसा अद्भुत आ उपस्थित हुआ है कि जिसमें ऊपर से अच्छे कार्य करने वाले भी सद्ज्ञान से शून्य रहते हैं। प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों समय

प्रत्येक बहिन को साचना चाहिये कि मैंने दिन भर के कार्य कितने सद्ज्ञानपूर्वक किये और कितने अज्ञान से किये हैं ? यदि तुमने दान भी किसी पात्र को दिया व तीर्थ-वन्दनादि भी की तो सोचो कि मान-ईर्ष्या-कषाय-संयुक्त होकर किये वा केवल अपने और पर के उपकारार्थ किये ? यदि कषाय-संयुक्त किये तो वहाँ सद्ज्ञान नहीं है और न वहाँ चारो पुरुषार्थों में से किसी की प्राप्ति ही हो सकती है। हाँ, यदि स्वपर-कल्याणार्थी होकर किये हैं तो वहाँ ही सद्ज्ञान है और वही चारों फल का दाता भी है। इसी प्रकार जितने व्यवहार हैं सब में ध्यान रखो कि कषाय कम हों और हृदय स्वच्छ रहे। ऐसी परिणति रखते रखते कोई समय ऐसा आ जाना निश्चित है कि मूल सम्यक्त्व का विकास आत्मा में हो जायगा और यथार्थ सद्ज्ञान भी स्थिर हो जायगा परन्तु यह भी हमारी सावधानी पर ही निर्भर है। यदि हम अपने नित्य कर्मों में सद्ज्ञान का विचार छोड़ देंगी तो अवश्य कुछ खराबी कर बैठेंगी। हमारा सम्यक्त्व क्षायिक नहीं है, और न ज्ञान ही क्षायिक है। जो कुछ है या होने की संभावना है वह सब हमारी सावधानी पर ही निर्भर है।

बहिनो ! जितनी पुस्तकें पढ़ो, सब में से सद्ज्ञान ही सार निकालो। ऐसी पुस्तकें पढ़ो जो विख्यात ज्ञानियों

की बनाई हों वा जिनमें स्वच्छता, पवित्रता सिखलानेवाली बातें हों । इनसे विपरीत जो कुल्लान की पुस्तकें हैं उनको पढ़कर अपना मस्तिष्क व्यर्थ गन्दा मत करो । इसी प्रकार पुत्र-पुत्रियों को भी ऐसे ही स्थान पर विद्याध्ययन कराओ जहाँ सद्ग्यान की वृद्धि हो स्तोत्रादि का पाठ बिना अर्थ समझे कण्ठस्थ मत करो । स्तुतियों का स्पष्ट भावार्थ हृदयद्गम कर लेने पर सद्ग्यान की वृद्धि में सहायता मिलती है । क्योंकि जिस स्वाध्याय से अपने सद्ग्यान की कुछ वृद्धि न हुई तो वह स्वाध्याय केवल नाम-मात्र का ही है । वर्तमान में हमारी बहिनें कण्ठाग्र स्तुति-पाठ करके संतुष्ट हो जाती हैं, परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है । प्रत्येक कार्य में सद्ग्यान का विचार रखना उचित है । एक शुभ कार्य को दश बीस मनुष्य मिलकर प्रारंभ करते हैं, उस समय सब ही एक से दीखते हैं परन्तु जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब अज्ञानी पिसक जाते हैं, और सद्ग्यानी ही स्थिर रह सकते हैं । बिना सद्ग्यान के जितने योग्य कार्य हैं उन में एक को भी गोत्र पत्नी नहीं हो सकती । अत एव, जितने नियम, प्रतिष्ठा, सुधार आदि हैं सब के प्रथम हमारे अन्तरंग में सद्ग्यान का विकास होगा परमावश्यक है ।

वर्तनी समाज में संस्था नहीं खुलनी, और जो खुली भी है उसकी शरणा ठीक नहीं रहती, नष्ट हो जाती है ।

इसका मुख्य कारण सद्ज्ञान का अभाव ही है । जगह जगह धर्मोपदेश होते हैं, कुरीतियों के निवारणार्थ अनेक व्याख्यान होते हैं, परन्तु असर नहीं होता, कुचालें कम नहीं होतीं । इन बातों का कारण हमारा ज्ञानाभाव ही है ।

बहिनो, इस सद्ज्ञान के अभाव से अनन्त काल से हम लोग भव-भ्रमण कर रही हैं । अब इसको ग्रहण करना नितान्त आवश्यक है । सद्ज्ञान की वृद्धिके लिये हम को विद्याध्ययन का अनुराग बढ़ाना चाहिये । भलीभांति पढ़ने-लिखने की योग्यता न होने से उत्तमोत्तम पुस्तको का स्वाध्याय नहीं हो सकता और न उनका अर्थ जाना जा सकता है । इसलिये प्रत्येक बहिन को चाहिए कि दो चार वर्ष परिश्रम करके मातृभाषा पढ़ने लिखने का अभ्यास अवश्य करलें । वर्तमान में घर घर में बहिनें साधारण लिखना पढ़ना जानने लगी हैं । परन्तु सद्ज्ञान की वृद्धिके लिये यत्न नहीं करतीं । बिना निरन्तर प्रयत्न के वृद्धि का विकाश नहीं होता और इसी लिए यथार्थ उन्नति भी नहीं हो सकती ।

स्त्री-संसार में विद्या की वृद्धि के लिये दिनोदिन लोग उपाय सोच रहे हैं । परन्तु अभी तक कृतकार्य बहुत कम लोग हुए हैं । अतएव, अब स्त्रियों को स्वयं भी कुछ यत्न करना चाहिये और किसी भी उन्नति के कार्य के प्रारंभ में सद्ज्ञान का विचार कर लेना चाहिये ।

सद्व्यवहार ।



द्व्यवहार अर्थात् अच्छा वर्ताव मनुष्य मात्र के जीवन का अलंकार है। यही पन और यश पैदा करने में अद्भुत सहायता देनेवाला साथी है। यही बालश्रवणा, जवानी और बुढ़ापे में निरन्तर संवा करनेवाला मित्र है। यही मनुष्य को उच्च गौरव दे सकता है और यही विद्या उगार्जन करने में प्रधान सहायक है।

बिना सद्व्यवहार सीखे कोई मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। पूर्वकाल में शारतवर्ष के स्त्री पुरुष और बालक-युवा सब अपने अपने कर्तव्य पर चलता जानते थे। वहाँ विद्याशिक्षा उस समय में आजकल की अपेक्षा और तरफ की हीनाधिक रही हो परन्तु स्वच्छ व्यवहार भागनभूमि पर अब से कहीं अधिक था।

वर्तमान समय में इससे उलटा ही दीखता है। हमारी स्त्री समाज तो इससे बिल्कुल अज्ञान स्त्री होती जाती है।

सद्व्यवहार ।

घर घर में फूट, वैर, विरोध, द्वेष ईर्ष्या फैल रही हैं । इससे हमारा ही नहीं किन्तु हमारी सन्तान का भी नाश हो रहा है । जिस देश में, जिस जाति में बालको को सद्व्यवहार की शिक्षा अच्छी तरह दी जाती है उस देश और जाति के बालक अपने जीवन निर्वाह का आदर्श-पथ अपने आप ढूँढ़ लेते हैं । अच्छे बर्ताव से उन्हें सब जगह हर तरह की सुविधा होती है । देश विदेश में जाकर पढ़ने में और व्यापार करने में उनको यथेच्छ सुभीता होता है तथा सब जगह उनका मान भी होता है ।

सद्व्यवहार की शिक्षा कोई चाहे कि रास्ता चलते मिल जाय, देश विदेशों में दौड़ने से प्राप्त हो जाय तो, ऐसा हो ही नहीं सकता । इसके लिये सुयोग्य माता, सुयोग्य पिता, और आदर्श गुरु की ज़रूरत है । जैसे विज्ञान सीखने में केवल भाषण सुनने से ही काम नहीं चलता वरन् कुछ वैज्ञानिक क्रिया का भी निरीक्षण करना पड़ता है उसी तरह सद्व्यवहार भी केवल उपदेश सुनने, पुस्तक पढ़ने या देखने से नहीं आता वरन् इसके लिये पवित्र क्रिया सीखने की ज़रूरत है । यह सद्व्यवहार की क्रिया बचपन से यानी माता की गोद में से ही प्राप्त होने पर तरुणावस्था में पूरा पूरा फल दे सकती है, अन्यथा नहीं । अतएव भारतीय बहिनो को चाहिये कि पहले वे स्वयं सद्व्यवहार का

पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करें और फिर अपनी सन्तान को उसी रास्ते पर चलाने की चेष्टा करें । आज कल के भारतीय नवयुवक आठ दस वर्ष परिश्रम कर के बी० ए० की डिग्री प्राप्त करके दुनियाँ के सब कामों में चतुर बनने का दावा करते हैं । परन्तु इनमें से सद्व्यवहारी होना किसी विरले के ही भाग्य में बदा होता है । इसका उदाहरण देखा जाय तो प्रत्यक्ष सब जगह मौजूद है । एक विद्यालय में ही देखिए, ग्रेजुएट से लेकर छोटी छोटी कक्षाओं के अध्यापकों तक, प्रायः सभी, आपस की फूट से भरे रहते हैं । इसी तरह विद्यार्थी भी मनमाने आचरण में मस्त रहते हैं । एक घर में देखिये, पढ़ालिखा पुत्र भी अपनी माता से असभ्य बर्ताव करता दीखता है । पति-पत्नियों में मन-मुटाव नज़र आता है । बच्चों के शरीर महामलिन दीखते हैं । इन सब का कारण सद्व्यवहार की हीनता है । अतएव प्रत्येक बहिन व बन्धु का चाहिए कि वे अच्छे बर्ताव में बालकों की रुचि बढ़ावें । जन्म से बच्चे को उठने में, बैठने में, हँसने में अच्छे अच्छे ढङ्ग सिखावें । एक दूसरे के साथ सहानुभूति करने की आदत डालें और उनको उदारता के साथ काम करने की शिक्षा दें । यूरोप आदि देशों में बहुत ही छोटे छोटे घरों के लिए शालार्थ चली हैं । उन में बालकों को अनुभवी अध्यापक वैचल्य

सच्चा बर्ताव करना ही सिखाते ह । उन देशों में अच्छे बर्ताव का पढ़ने से भी अधिक मान है । भारत में अभी ऐसी शालाएँ नहीं हैं । यहाँ प्रत्येक माता की गोद में ही शिक्षालय होना चाहिए । यह तभी हो सकता है जब हमारी बहिनें स्वयं विदुषी बनें और पढ़ना लिखना भी अपना मुख्य काम समझें । बहिनो ! हमको पुरुषों से भी विशेष विद्या-लाभ के साथ सद्व्यवहार सीखना चाहिए । राष्ट्र की वागडोर वास्तव में हम लोगों के हाथों में है बड़े बड़े राष्ट्रों के निर्माता हमारी ही गोद में बनते और बिगड़ते हैं । भारत के कल्याण के लिये यह परम आवश्यक है कि हम सब सुशिक्षा प्राप्त करें और भारत का मुख उज्ज्वल करनेवाले पुत्र-रत्नों को पैदा करें ।



आत्म पदार्थ ।

—(*)—



सार में दो वस्तुएँ हैं । एक जीव, एक अजीव । तीनों लोकों में जो जो चीजें नज़र आती हैं, जो कुछ भी खेल दीखता है, वह सब इन दोनों का ही है । सब मतों में किसी न किसी ढंग से जीव अजीव तत्त्वों का वर्णन किया गया है । तथा आजकल भी वैज्ञानिक लोग साइन्स (विज्ञान,) द्वारा तरह तरह के आविष्कार निकाल रहे हैं । वह सब इन्हीं तत्त्वों की हालत जान जान कर निकाल रहे हैं । हमारे जैनाचार्य इन तत्त्वों को असाधारण रूप से जानते थे । उनकी ज्ञानदृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि जो एक पुद्गल के परमाणु (ऐसा टुकड़ा जिसका टुकड़ा फिर न हो सके—उससे लेकर बड़े भारी परमाणुओं का ढेर, महास्कंध) तक की, धर्माधर्म, आकाश, फाल्गुदि समस्त दृश्य अदृश्य पदार्थों को तथा नरकवासी आत्मा से लेकर मोक्ष तक के जीवों की दान्त्य को जानते थे । उसी

के अनुसार अपने ग्रंथों में इन तत्त्वों का इतना उल्लेख पाया जाता है कि जिससे आज तक भी चारों अनुयोग रूपी* भंडार भरा है। यदि निष्पक्ष होकर देखा जाय तो सब जीवों को दुनियाँ की सब चीजों का ठीक ठीक हाल बतानेवाला जैन धर्म है। इसमें आत्म-द्रव्य (आत्म-पदार्थ) का कथन कैसा असाधारण किया गया है उसके प्रव्यानुयोग के ग्रंथ बान्धनेवाले ही जान सकते हैं। अपनी पाठिका वहिनो के हितार्थ हम भी यहाँ पर किञ्चित् लिखने का यत्न करती हैं।

जीव—जिसमें चैतन्य गुण सदैव विद्यमान रहे और जो तीनों कालों में सांसारिक अवस्था में, कम से कम चार प्राणों (स्पर्शइन्द्रिय, काय-बल, श्वासोच्छ्वास, आयु) से तथा अधिक से अधिक दश प्राणों से (५ इन्द्रिय-स्पर्श रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, तीन बल-कायबल, वचनबल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास और आयु) जीता रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता; पर्याय बदलती रहती है।

* चारों अनुयोग=चारों तरह के शास्त्र—१ प्रथमानुयोग, जिस में पौराणिक कथायें होती हैं। करणानुयोग, जिसमें लोक का कथन हो। चरणानुयोग जिसमें चरित का वर्णन हो। प्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्यों का कथन हो।

जीव नवीन बनता नहीं, सदा से है और सदा जीवराशि † में रहेगा । गति की अपेक्षा जीव के मुख्य चार भेद हैं— मनुष्य, पशु, देव और नारकी तथा ज्ञान की अपेक्षा मुख्य तीन भेद हैं बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ।

बहिरात्मा*-सांसारिक अवस्था में जब यह जीव विष-योपभोगों में फँसकर अपने को भूल जाता है और देह को ही अपना समझता रहता है उस हालत में बहिरात्मा को संसार में दिनरात बहुत दुःख भोगना पड़ता है । क्योंकि दुनियाँ की सब वस्तुओं के नाश को देख वह अपना इतना नुकसान समझता है मानो अपने आत्मा में से कुछ अंश कम हो गया । इसी से निरन्तर कष्ट भोगता है और बड़े भारी कर्मों का संचय करता है । जिसका फल फिर आगामी जन्म में भोगना पड़ता है । दुनियाँ को सब चीजें अपने अपने परिणामन † से परिणमती हैं । (अपना काल पाकर उपजती हैं और समय पूरा हो जाने पर नष्ट हो जाती हैं ।) पर वही बहिरात्मा जीव यह चाहता है कि

† जीव राशि=समस्त जीवों का समूह ।

* बहिरात्मा=जिम प्राणी को आत्मा और नगीर का भेद मालूम न होता है

‡ परिणमन = वस्तुओं की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का होना ।

मेरे मन के अनुकूल जगत् की सब चीजें उपजें और विनशें परन्तु संसार में यह होना असम्भव है। वस, इसी परिणति से † बहिरात्मा दशा में दुःख की बहुतायत है। बहिरात्मा जीव जप, तप, दानादि जो कुछ करता है वे भी उलटे फल को देनेवाले होते हैं यानी सांसारिक चीजों को देनेवाले होते हैं, मोक्ष को नहीं। यह बहिरात्मदशा सब तरह छोड़ने योग्य है। अन्तरात्मा होना योग्य है।

संसारी जीव अनादि काल से बहिरात्म-दशा में पड़े हैं। किसी समय किसी जीव के कर्मों का उदय मन्द होता है, तब पापकर्म से डर कर धर्म की तरफ़ परिणति झुकती है, तब किसी सद्गुरु के उपदेश द्वारा आत्म-स्वभाव का हाल जानकर उसमें अटूट भक्ति और विश्वास हो जाता है, यही सम्यग्दर्शन* है और इसी दशा में जीव को अन्तरात्मा कहते हैं। यह अन्तरात्मा सांसारिक सब चीजों को पहले से अब और ही तरह से जानता है। सिवा आत्मा के और सब चीजों को अपने से भिन्न समझ कर उन में राग-द्वेष बहुत हलका हलका करता रहता है। पहले जिस शरीर और धनधान्यादि का नाश देख विकल होकर अपना ही नाश मानता था अब वह भ्रम उसका

† परिणति = स्वभाव ।

* सम्यग्दर्शन = आप्तभाषित तत्त्वों का अटल विश्वास ।

मिट गया और अन्तरात्मा अवस्था में रहकर सब चीजों को पृथक् भाव से देखता हुआ हर्ष-विषाद के अवसर पर शान्त रहता है । जिस तरह कोई भोला मनुष्य जल मिला हुआ दूध लेकर दगैर जाने पी लेता था इस कारण न तो उसका शरीर पुष्ट होता था और न क्षुधा मिटती थी । एक दिन भाग्यवश किसी चतुर मनुष्य के यताने पर वह जल-मिश्रित दूध का भेद जान गया और शुद्ध दूध की तलाश करके उस को पीने लगा, जिससे क्षुधा भी मिटने लगी और शरीर भी दृष्ट पुष्ट हो गया । इसी तरह अन्तरात्मा अन्त्य सब द्रव्यों से अपना भेद समझ कर अन्तिम कल्याण करने लगता है । बहिरात्मा-दशा को छोड़ कर सम्यक् दर्शन के प्राप्त होते ही चौथा गुणस्थान प्राप्त हो जाता है । उसी समय से लेकर बारहवें गुणस्थान* तक जीव की अन्तरात्मा संज्ञा रहती है, जिसके तीन भेद हैं । चौथे गुण-

* बारहवाँ गुणस्थान = गुणस्थान संसारी जीवों के भासों को कहते हैं । इसके १४ दर्जे हैं, जैसे जैसे नियोजना बढती जाती है, दर्जे बढते जाते हैं । नाम—मिथ्यात्म-मासादन-मिथ-भक्तिरत, देह-मत, प्रमत्त-संसय, प्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अग्नियकरण, सूक्ष्ममाम्ब-राय, उपरान्त-रुपाय, क्षीयकपाय, सयोगकवती, अयोगकवती, क्षीय-कपाय बारहवाँ है ।

स्थान वाला अत्रती † जघन्य, अणुव्रती † श्रावक मध्यम, और महाव्रती § उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । प्रथम अवस्था में अन्तरात्मा की यह उत्कृष्ट अभिलाषा रहती है कि हम ज्ञानावर्णी, जो ज्ञान को रोके; दर्शनावर्णी, जो दर्शन को रोके; मोहनीय जो मोह पैदा करे (आत्म द्रव्य से जुदी चीजों में रमण करे); अन्तराय, जो अनंत सुख वीर्यादि में विघ्न करे; नाम जिससे शरीर की रचना हो, गोत्र जो नीचे ऊँचे गोत्र में पैदा करे; आयु जो संसार में स्थित रखे; वेदनी जो दुनियाँ की चीजों के द्वारा सुख दुःख अनुभव करावे, इन आठों कर्मों का नाश करके मोक्ष सुख को प्राप्त करें । इस कारण उत्तरोत्तर उग्र से उग्र तप करता है, और क्रमशः विशुद्धता को बढ़ा कर बारहवें गुणस्थान का आश्रय करता है ।

† अत्रती = जो नियम रूप से हिंसा, चोरी, मूठ, अन्नह्य, परिग्रह का त्यागी न हो ।

‡ अणुव्रती = जो हिंसा, चोरी, मूठ, अन्नह्य, परिग्रह का एक देशीय त्यागी हो ।

§ महाव्रती = जो संपूर्ण पापों का त्यागी हो ।

परमात्मा ।

जिस समय बारहवें गुणस्थान में यह आत्मा ४ घातिया कर्मों* को नष्ट कर देता है, तत्काल तेरहवें गुणस्थान पर जाकर अरहन्त † पदवी को प्राप्त कर सकल परमात्मा हो जाता है। चार कर्मों के नाश से चार गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य प्रकट होते हैं। इस परमात्मा के राग द्वेषादि शत्रु जड़ मूल से उखड़ गये हैं। न क्षुधा है, न तृषा, अठारह दोषों में से कोई नहीं है। संसार की जितनी बाधाएँ हैं उन सब का शेष हो गया है। लोक अलोक ‡ प्रत्यक्ष दीख रहा है। जिस ज्ञान के बढ़ाने में भद्र मनुष्य जन्म भर प्रयत्न करता है परन्तु तब भी आशा पूर्ण नहीं हो पाती, वे सब कामनायें यहाँ टंठी हो गई हैं। दुःख का अंत कर निजानंद सुख में अरहन्तात्मा मग्न है। ये

* घातियाकर्म = ज्ञानाकर्षी, दर्शनाकर्षी, मोहिनी, अन्तराय ये चारों कर्म आत्मा के असली गुणों का पात करते हैं।

† अरहन्त = जिस आत्मा के चार कर्मों का नाश हो गया हो और अनन्तज्ञान (सर्वज्ञाना, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य) प्रकट हुआ हो।

‡ लोकअलोक = लोक यह है जहाँ तक और पाँच द्रव्य भी पाये जायें। इसके बाद केवल आकाश है, उसको अनोक कहते हैं।

सब अन्तरंग लक्ष्मी और समवशरण § की बाह्य लक्ष्मी इस सकल परमात्मा को प्राप्त होती हैं वहाँ बारह सभा के मध्य में गंधकुटी* पर सिंहासन में विराजमान हो कर दिव्यध्वनि † द्वारा उपदेश देते हैं, जिससे अनेक भव्य जीवों का परम कल्याण होता है । तथा उसी ध्वनि के अनुसार गणधर देव द्वादशाङ्ग (शास्त्र) रचना करते हैं, जो जिन-वाणी परंपरा आज तक हमारा कल्याण कर रही है । जब आयु कर्म की स्थिति बहुत कम रह जाती है, तब समव-शरण की रचना उठ जाती है और अवशेष ४ अघातिया कर्मों को नाश कर एक समय में अरहन्त आत्मा सिद्ध शिला पर पहुँच जाते हैं, अर्थात् मोक्ष हो जाती है ।

मोक्ष होने के पश्चात् इनको निकल परमात्मा कहते हैं यानी कल—शरीर से रहित निकल परमात्मा है ।

इस मोक्ष स्थान से बाधा-रहित, अविनाशी, अनन्त

§ समवशरण—उस सभा का नाम है जिसमें तीर्थंकर अरहन्त देव उपदेश देते हैं ।

* गन्धकुटी—समवशरण (सभा) के बीच में ऊँचे पर एक वेदी (चबूतरा) सिंहासन, छत्र, चामर आदि सहित रहती है, उसी पर अन्तरिक्ष में विराजमान होकर भगवान् उपदेश करते हैं ।

† दिव्यध्वनि—अरहन्त भगवान् की भाषा । यह मेघ की गर्जन के समान अनन्तरात्मक होती है । इसको सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं ।

अकथनीय सुख है ।

इसका वर्णन करना छात्रस्थ मनुष्य की सामर्थ्य से बिलकुल ही बाहर है । यह सुख अनुपम एक ही है यथा—

एकमेव हि तत् साध्यं, विपदामापदापदात् ।

अपदान्येव भासन्ते, पदान्यन्यानि यत् पुरः ॥

भगिनियो ! एक मोक्ष-सुख ही ऐसा सुख है जिसको किसी न किसी रूप में तीनों लोक के संसारी जीव चाह रहे हैं ।

चाहे राजा हो, चक्रवर्ति हो, सब को कुछ न कुछ इच्छा विद्यमान रहती है कि जब तक मोक्ष नहीं होगी, अपना पूर्ण सुख नहीं मिलेगा और न आशुल्कता मिटेगी ।

हम लोगों को उचित है कि बहिरात्मदशा को छोड़कर अन्तरात्मा बनें और परमात्म-पद पाने का श्रवत्यानुसार यत्न करें । आलस्य में पड़े रहना उचित नहीं है—

मनुष्य-जन्म का समय बहुत न्यून है । इसमें स्वपर-दिन करना ही अपना कर्तव्य है ।

क्षणदत्त्व वदन्त्यार्या घटी घातेन भूभृताम् ।

क्रियतामात्मनो श्रेयो, गतेर्य नागमिष्यति ॥

अर्थात्—घड़ी में जो घन्टे एक के बाद एक बजते हैं वे मानो कहते हैं कि अपना कल्याण छल्दी करो घीती हुई घड़ी फिर नहीं आवेगी ।

स्वावलम्बन ।



वलम्बन मनुष्य में अवश्य होना चाहिये । जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं होता वह कदापि सुख और शान्ति का पात्र नहीं हो सकता । यद्यपि भ्रमात्मक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को अपना सहारा दीखता है, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का अन्नदाता बनता है, एक दूसरे के आश्रय से रह कर सुख दुःखो का अनुभव करता है; परन्तु वास्तव में विचार कर के देखा जाय तो मनुष्य के सुख दुःख का मूल कारण उसके स्वावलम्बन पर ही निर्भर है ।।

(अपने पैरो के बल खड़ा रहना; अपने आप को भी एक संसार-सभा का सभासद् समझना ही स्वावलम्बन है ।) इसके विपरीत कायर रहना, प्रत्येक कार्य में पराश्रय ढूँढना स्वावलम्बन नहीं है । जिस जाति में, जिस कुटुम्ब में, जिस घर में इसका जितना ही प्रचार है उतना ही आनन्द का सञ्चार है, और जितना जहाँ जहाँ हास है

उतना ही दुःख का प्रादुर्भाव है ।

प्रायः हमारी स्त्री-समाज में इसकी खासी कमी पाई जाती है । हमारी बहिनें सोचती हैं कि स्त्रियों को अबला कहते हैं, फिर हममें बल कहां से आया, हममें अपने भले-बुरे सोचने की शक्ति कहां से आई, हम लोग दुनियाँ में कुछ नहीं कर सकतीं इत्यादि २ विचारों से स्वावलम्बन को पास नहीं आने देती हैं । नव महीने घोर कष्ट सहकर जिस सन्तान को उत्पन्न करती हैं, कुछ दिनों में उसीसे झिड़की खा खा कर अपना समय व्यतीत करती हैं । जिस सन्तान से नामचरी की आशा रखती थीं उसीके दुर्गुण चुपचाप बैठी बैठी देखती रहती हैं । जिस पुत्रवधू को देखने की लालसा वर्षों से लगी थी, जिसके विवाह में तन-मन-धन लगाकर दिन रात परिश्रम किया था वही स्त्रीधी गालियाँ देती हैं । जिस धन को पति तथा अपने आप ने अति कष्ट से सञ्चय किया था उसीका दुरुपयोग प्रत्यक्ष देख देख कर जलती रहनी हैं । ये सब हालतें क्यों हुईं ! यथेष्ट धानन्द क्यों नहीं मिला ? इसका उत्तर या कारण यही है कि उन बहिनों ने अपने को कुछ न समझा, अपना कर्तव्य-पालन नहीं किया । इसी कारण यह दुर्दशा हुई ।

यदि स्वयं विद्याभ्यास कर विदुषी बनतीं तथा सन्तान पोषण का मार्ग जानतीं तो अज्ञानसन्तान को भी सुशिक्षित

बना सकतीं, तब उपर्युक्त कष्टों के स्थान में शून्य रह जाता और सुख की वृद्धि होती ।

वर्तमान में स्त्री-समाज की उन्नति में पुरुष-गण तो उदासीन हो ही रहे हैं, परन्तु उनसे चतुर्गुण हताश हम स्त्रियाँ भी हो गई हैं । स्वावलम्बन के अभाव से साहस ऐसा कम हो गया है कि किसी भी महत्व के काम पर दृष्टि नहीं जाती । यदि कोई विषय सम्मुख उपस्थित हुआ भी तो पुरुषों का मुँह ताकने लगीं । उन्हीं से सब निबट्टेरा करवा लिया गया । स्वयं हिलने की आवश्यकता नहीं । वस, इसी तरह यदि स्वामी, भाई, पिता जो कोई घर में कमाऊ हुआ उसकी आई खराबी । क्योंकि जितनी भी स्त्रियाँ हैं वे सब मिलकर द्रव्य का दुरुपयोग करने लग जाती हैं । यदि किसी विपत्ति का सामना करना पड़ा तब तो कहना ही क्या है, धन, धर्म सब कानाश कर बैठती हैं, ज़रा भी निरावलम्ब रहना कठिन कर देती हैं । यदि कुटुम्ब में पिता, पुत्र, पति आदि लोगों को अवकाश कम रहा या विदेश रहना हुआ, अथवा दुर्भाग्य से मरण हो गया तो चढ़माश गुण्डों की भोज्य बनजाती हैं । कोई साधु बन कर, कोई ओम्हावन कर और कोई धन्वन्तरि वेद्य बन कर ठग लेता है । यहाँ तक कि सर्वस्व गँवा कर, दीन, हीना होकर, संसार-यात्रा पूरी करती हैं । परन्तु, बहिनी ! पूर्व

काल में हमारी यह अवस्था नहीं थी तथा सभ्य समाज में वर्तमान में भी यह दशा नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों में कितनी विदुषी और वीरोद्गता स्त्रियों के जीवन चरित्र लिखे हैं। उनके महत्व पूर्ण कार्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि उस समय स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही पढ़ी-लिखी और कर्तव्यपरायणा होती थीं। वे गृह प्रबन्ध करती थीं अच्छी तरह अतिथि सत्कार भी करती थीं तथा अपनी संतान को भी स्वयं ही सुशिक्षित बनाने का भार सिर पर लेती थीं। अर्द्धाङ्गिणी शब्द को भी साथेक करती थीं यानी पति के सम्पूर्ण कार्यों में आधी सहायता देती रहती थीं और अन्त में आर्यिका के व्रत धारण कर समाधिमरण कर स्वर्गगामिनी होती थीं। एक सीता जी को ही देखिए जिनका कि नाम सारे भारत में प्रति मनुष्य के हृदय में अङ्कित है, कैसी थीं। अपने दोनों पुत्रों को असहाया होने पर भी कितना योग्य बनाया था, रावण के यहाँ कितने कष्टों का सामना किस वीरता से किया था तथा अन्त में उग्र तप कर लोलहवे स्वर्ग का सुख प्राप्त किया था। प्रिय पाठिका बहिनी ! आज भी बड़ी भारतवर्ष हैं, उसी धर्म का अवलम्बन है, उन्हीं महती देवियों के कुल में जन्म लिया है; फिर इतनी कायरता करनी उचित नहीं है। बहिनें कहती हैं कि अयं फलि-काल है, अयं का समय

पहला सा नहीं रहा । अब के संहनन पहले से नहीं रहे । परन्तु, बहिनो ! यह सत्य है । जो कुछ हुआ है या होगा वह सारे संसार के लिये ही होगा । ज़रा विचार करके देखिये, क्या पञ्चम कालका प्रकोप सर्व प्रकारेण स्त्रीसमाज पर ही है ? क्या यह काल सब तरह से स्त्रीसमाज के ही हाथ-पैर तोड़ता हुआ आया है ? क्या पुरुषों को बी० ए०, एम० ए० पास करने की शक्ति प्रदान करता है तथा करोड़ों रुपये कमाने का मार्ग दिखाता है और ब्रह्मचारी बनने योग्य ज्ञान की प्राप्ति भी करने देता है, सब कुछ करने देता है, द्रव्य क्षेत्र के अनुसार किसी विषय में बाधा नहीं डालता; परन्तु स्त्रियों को ही प्रत्येक कार्य में रोकता है ? यह पञ्चम काल का विचित्र जाल है । बहिनो, यह बेचारे कलिकाल के सिर ब्यर्थ ही का दोषारोपण है । प्रकृति की दृष्टि में स्त्री पुरुष सर्वही अपने अपने योग्य एकसे हैं । सब ही निरन्तराय कार्यक्षेत्र में कार्य कर सकते हैं । सबही पुण्य पापों का सञ्चय कर सकते हैं । यह बनावटी प्रपञ्च हमारी बहिनों का ही है कि काल के सिर थोप कर चुप बैठी रहती हैं, हाथ नहीं हिलातीं, न स्वयं पढ़तीं और न अपनी कन्या तथा बहुओं को पढ़ने देतीं या न किसी उपयोगी कार्य में भाग लेती हैं ।

प्रिय बहिनो अब ऐसी अवस्था में समय व्यतीत करनेसे

काम नहीं चलेगा । हम को भी स्वावलम्बन का सहारा लेना चाहिये । स्त्री-पर्याय यद्यपि पुरुष-पर्याय की अपेक्षा निकृष्ट है, तो भी अन्य लाखों करोड़ों पशु-पर्यायों की अपेक्षा अति उच्च है । अनन्त संसार की चतुर्गनियों में मनुष्य-गति ही कल्याण का द्वार है । दोनों को अपना अपना कर्त्तव्य-पालन करना चाहिए ।

देव-गति में सुख इतना है कि आत्मा संयम, नियम और स्वपरोपकार नहीं कर सकता, सुख में ही लचलीन रखता है ।

नरक में दुःख इतना है कि विकलता के कारण कुछ नहीं हो सकता तड़फने तड़फने समय चला जाता है ।

पशु-गति में ज्ञान की मन्दता रहती है और इसमें हेयोपादेय के ज्ञान बिना कुछ नहीं कर सकता ।

एक मानव-जीवन ही कर्म-साधन का क्षेत्र है । इस जगह आकर देकार समय नहीं खेना चाहिए । एक एक क्षण अमूल्य है । "गया समय फिर हाथ न आवे, लूटो हो लूटनहारे" । यह सत्य है । जो मग्य चला गया फिर वह नहीं आ सकता ।

हमारी बहिनों को चाहिए कि सबसे प्रथम अपने को विद्यालाभ की ओर झुकावे । जिम तरह हो सके विद्या पढ़ें, अपनी पुत्रियों को उच्च विद्या पढ़ाने का दृढ़ संकल्प करें ।

हिम्मत करके सेवाकार्य में पदार्पण करना चाहिए । जिस कार्य को सब मनुष्य कर सकते हैं उसे हम क्यों न कर सकेंगी ? अवश्य कर सकेंगी । ऐसा विचार कर सुकृत करने में किसी को न हिचकना चाहिये । सुदृढ़ होकर कुरीतियों को जाति से निकाल दो, अपने आपे से काम लो परिश्रम करके सुगुणों का संचय करो ।


समाजनेता कितना ही उद्योग करें प्रत्येक घर में प्रकाश नहीं पहुँचा सकते । परन्तु यदि प्रत्येक घर की महिला स्वयं पढ़ने का संकल्प कर ले, कुरीतियों को छोड़ दे तो सहज में सारे भारत का कल्याण हो सकता है ।

बहिनो, अपने आप को सुधारना कुछ मुश्किल नहीं है । सैकड़ों ऐसे महान् व्यक्ति हैं जो लाखों का उद्धार करते हैं । फिर हम लोगो को अपनी सन्तान का सुधार करना, स्वयं ज्ञान सम्पादन करना क्या कठिन है । जब तक आलस्य करते हैं तभी तक गढ़े में पड़े हैं, यदि उद्योग करें तो कुछ भी असाध्य नहीं है । मनुष्य उद्योग से ही कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त करता है । सभ्य मनुष्य को चाहिए कि उद्योग में शिथिल न रहे, जो उद्योगशील हैं उनका पुरुषार्थ बुढ़ापे में भी नहीं थकता । बराबर क्रमशः बाल्यकाल में विद्याभ्यास, युवावस्था में नीति-शिक्षा और वृद्धावस्था में आत्मध्यान करते करते बीतता है ।

उन्हीं को समाधिमरण भी मिलता है । और जो हमारी वहिनें तकिये के सहारे पड़ी पड़ी जीवन व्यतीत करती हैं उनका शरीर ऐसा शिथिल हो जाता है कि तीनों ही अवस्थाएँ व्यर्थ बीत जाती हैं । सदा रोग से घिर कर संसार में भार-स्वरूप रहती हैं । इसी प्रकार जो गरीब स्त्रियाँ हैं वे भी मूर्खा होने के कारण कलह में ही जन्म व्यतीत करती हैं । अतएव, सर्व वहिनों को उचित है कि अवश्य ज्ञान सम्पादन करें । साहस करें । अपने आप को मनुष्य समझें, सब कुछ होगा ।



आत्मगुण ।



वधारी आत्मा संसार की सब वस्तुओं से श्रेष्ठ एवं माननीय हैं तथा अनन्त गुणों का धारक है, इस बात को सभी सभ्य स्वीकार करते हैं, तथा अनुभव से भी जानते हैं। इसी कारण, आस्तिक और नास्तिक समस्त धर्मावलम्बियों ने अपने अपने धर्म में आत्म-वर्णन किसी न किसी रूप में किया ही है। परन्तु इस वर्णन में एक बड़ा भारी भेद पड़ गया है। वह भेद क्या है? केवल स्वार्थ—यानी जिन लोगों में स्वार्थ को कमी है उन्होंने कुछ अच्छा वर्णन किया है और जिन में स्वार्थ की मात्रा अशेषतः नष्ट हो गई है उन्होंने बिलकुल ही स्पष्ट कह दिया है। परन्तु जो स्वार्थ से घिरे हैं वे बहुत ही थोड़ा एवं अस्पष्ट कह सके हैं। अनन्त गुणात्मक आत्मा स्वभाव से ही बाधरहित है। इसके एक गुण “पर्याय धारण करना” को लीजिये। यह स्थूल तथा सूक्ष्मरूप से बराबर बना रहता है। कभी नष्ट नहीं होता, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पलटता रहता है। यह आत्मा किसी

पर्याय में जाय एक अंश भी नहीं घटता । चाहे चीट हो या हाथी हो या मनुष्य हो, संपूर्ण पर्यायों में अखण्ड चैतन्य रहता है । यह अनन्त गुणों का घर है । जब मनुष्य को स्वार्थ घेर लेता है तब इन सब पातों को स्वीकार करने में डरने लगता है । वह समझता है कि यदि सब आत्माओं को बराबर केवल पर्यायकृत भेदी मानता हूँ तो जीवों को मार कर भक्षण किस प्रकार करूँगा । यदि पर्यायवान् मानता हूँ तो नरक स्वर्ग सब सिद्ध हो चुके, किसी प्रकार परपीड़न करूँगा । वस, इसी कारण, प्रत्यक्ष दीखने वाली वस्तुओं में भी स्वार्थी भ्रम करके उल्टा चलता है । साक्षान् दीख रहा है कि जिस प्रकार ज्ञान-दर्शन की क्रियाएँ हमारे भीतर भलक रही हैं उसी प्रकार पशु, पक्षी सब में आत्मदर्शन हो रहा है । वे सब भी सुखी दुखी होने हैं, भले नुरे की पहचान करते हैं, समय समय पर शुभ्रा, तृषा जिन प्रकार हलको तंग करती है उसी प्रकार इनको भी सताती है । फिर इन प्राणियों का घात करना एवं इनको दुखी करना मनुष्य मात्र के लिये कैसे मृत्यु हो सकता है ? इसी प्रकार षडेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्गिन्द्रिय आत्माओं की अवस्था है । इसमें भी सम्पूर्ण गुणवाला आत्मा सर्वतो माव से रहता है । इसी कारण जैनाचार्यों ने इनके छेदन,

आत्मगुण ।

भेदन में पाप बताया है। परन्तु जिह्वा लम्पटी वर्तमान के नव युवकगण तथा अज्ञानाच्छादित महिला-मण्डली इस बात को असत्य मानकर मनमाना आरम्भ करती हैं। स्वानुभव प्रत्यक्ष बात पर भी विश्वास नहीं करती। काल के चक्र से फिर आधुनिक विद्वानों ने इधर दृष्टिपात किया है और अनेक यन्त्रों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि पेड़-पत्तों, फल-फूलों में भी जीवात्मा है। वे भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं; मिट्टी, जल का आहार पान करते हैं, जब तक जीते रहते हैं हरे रहते हैं, मरने पर सूख जाते हैं।

जब तक हम लोग आत्मगुणों को स्वीकार नहीं करेंगी कभी यथार्थ मार्ग पर नहीं आएँगी। जैसे साइंस (विज्ञान) द्वारा पौद्गलिक पदार्थों के गुणों को मनुष्य जानते हैं उसी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से आत्मगुणों को जानना भी परमावश्यक है।

जब हम यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा पर्य्यायवान् है, तब सब जीव एक से लगने लगते हैं; पामर प्राणियों पर दयाभाव उत्पन्न हो जाता है, क्षुद्र जीवों पर क्रोध नहीं होता, पतित मनुष्यों से घृणा न होकर उनको सुधारने के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, किसी के प्राण नाश करने में हाथ नहीं उठता। समय के चक्र में हम भी सब पर्य्यायों को भोग चुके हैं। ऐसे ऐसे विचारों से आत्मा द्वेषाग्नि

को जलांजलि देकर शान्त और सुखी रहता है ।

केवली भगवान ने आत्मा के अनन्त गुणों का वर्णन किया है । उन सम्पूर्ण गुणों का अनुभव करना छद्मस्थ आत्मा के लिए अनाध्य है । तो भी यथासाध्य अनुभवित गुणों पर विश्वास और विचार करते रहना उचित है । आत्मगुणों पर श्रद्धा होना ही सम्यक्त्व है । इन्हीं को विस्तृत समझना सम्यग्ज्ञान है । और, इन्हीं में स्थिर हो जाना सम्यक्चारित्र्य है ।

“अनन्तशक्तिमान होना” यह भी आत्मा का एक असाधारण गुण है । इसको समझने से एवं विश्वास करने से हम लोगों को आत्म-साहस भले प्रकार हो जाता है । हमारी आत्मा में कितनी शक्तियाँ भरी हैं इसका तनिक भी हम लोगों को अनुमान नहीं है । हम लोग प्रत्येक कार्य्य को अशक्त बन कर करती रहती हैं । कर्मों से दधी हुई अनन्त शक्ति को भूल कर दुर्बल दीन हो गयी हैं । परन्तु घास्तव में ऐसा नहीं है । हमारी समस्त शक्तियाँ इन्द्रियों द्वारा ढकी हैं । जब जब निमित्त मिलता है तभी तब प्रकट हो जाती हैं ।

एक बालक ५ वर्ष की अवस्था में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं रखता, घाती बालक पढ़ते पढ़ते २० वर्ष की अवस्था में मर्मज्ञ पण्डित हो जाता है । यह प्रभाव शक्ति-

देवी का ही प्रसाद है। हमारी अटूट शक्ति का प्रमाण हमारी प्रत्येक इन्द्रिय दे रही है।

वक्षु इन्द्रियों को ही देखिए, यह कितने प्रकार के वर्णों को पहचानती है, कितने रूपों को भेद-प्रभेद-सहित जानती है, जितना आँखों से दीखता है उसका शतांश भी मनुष्य मुख से वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार कर्ण इन्द्रिय द्वारा अपरिमित शक्ति का बोध होता है। एक आत्मा कितने ही मनुष्यों के शब्दों को सुन कर सब को पृथक् पृथक् पहचानता है। यदि भेद पूछा जाय तो वचनों द्वारा कुछ भी नहीं कह सकता कि इस मनुष्य के शब्द में यह भेद है। परन्तु अपनी अनन्त शक्ति से सब भेदों को भीतर ही भीतर अनुभव करता रहता है, तात्पर्य यह है कि—

क्रमशः प्रकाशित होनेवाली अनन्त शक्तियाँ एक साथ एक आत्मा में विराजमान रहती हैं। जितना जितना परिश्रम किया जायगा प्रकट होती जायँगी और जिस दिन सम्पूर्णतया प्रकटी भूत हो जायँगी तभी मोक्षरूप अवस्था हो जायगी।

हम लोगों को अपने स्वरूप पर विश्वास करके कमी हताश नहीं होना चाहिए। जब तक अपनी पूर्ण शक्तियाँ आविर्भूत न हो जायँ तब तक सोत्साह यत्न करते रहना चाहिए। जिन कार्यों से हमारी आत्मा पतित हो कर

शक्ति-विहीन हो, उनके परित्याग करना चाहिए।

अभक्ष्य भक्षण से गार कुसङ्गति से आत्मशक्ति का नाश होता है। इनसे बच कर स्वशक्तिदीपक विद्यालाभ, परोपकार, तप, दानादि कार्य करने चाहिये, जिन से आत्मा उन्नत होकर स्वगुणों पर पहुँच जाय। इस विषय में हमारा अधिकतर कहना उन भोली बहिनों से है जो अपनी शक्तियों को बिलकुल नहीं पहचानतीं और दीनादृष्टा में ही जीवन व्यतीत कर देती हैं।

बहिनो! आत्मगुणों पर विश्वास करो, उनके चमकाने का प्रयत्न करो तब सर्वशक्तिशाली आत्मा स्वयं ही प्रकट होगा।




धनदशा-दर्शन ।



दानं भोगो नाशस्तित्तो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भूङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १ ॥



र्थात् दान, भोग और नाश, ये तीन अवस्थायें द्रव्य की होती हैं ।

जो मनुष्य न दान देता है और न स्वयं भोगता है, उसका द्रव्य तीसरी गति को प्राप्त होता है । यानी नष्ट हो जाता है ।

नोतिकार ने उपर्युक्त श्लोक कैसा यथार्थ कहा है—
सत्य है ।

धन की ये तीनों अवस्थाएँ नित्य प्रति प्रत्यक्ष दिखालाई दे रही हैं ।

इस श्लोक पर विचार करने से एक प्रश्न यह उठता है कि आज हमारी बहिनों के द्रव्य का उपयोग किस रीति से हो रहा है ।

इस प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से देने की आवश्यकता नहीं

है, वरन् खूब सोच विचार कर इसका सार निकालना चाहिये। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष से हमारा प्रयोजन नहीं है, सारी समाज की अवस्था ही हमारी चास्तविक अवस्था है और उसी पर विचार करना अपना मुख्य कर्तव्य है। शायद आपका यह उत्तर होगा कि हमारी समाज के लाखों रुपये प्रति वर्ष दान में लगते हैं और लाखों ही विवाहादि में भोग सामग्री के निमित्त खर्च होते हैं। परन्तु यह कहना मेरे खयाल में अनुचित है, क्योंकि यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो न हमारे यहाँ यथार्थ दान होता है और न यथार्थ भोग। नामवरी के लिये जहाँ-तहाँ द्रव्य फेंक देना दान नहीं है। बिना देखादेखी और बिना ईर्ष्या आदि के खर्च करना ही दान है।

दान का लक्षण जो पूर्वाचार्यों ने कहा है वही सर्वथा ठीक है।

“अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्”

अर्थात्—वाक्यानुसार जिस दान से अपना तथा पाने-वाले का कल्याण न हो वह कदापि दान नहीं हो। मकता दान करने समय नामवरी पर ध्यान देना उचित नहीं। किन्तु स्वपर कल्याण ही पर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि जब तक हम दान के पूर्व अपने ज्ञान से काम नहीं लेंगी

कदापि यथार्थ दान करने में सफलीभूत नहीं हो सकती अज्ञानी, दान तथा भोग की विधि में उलट पलट कर बैठता है, अर्थात् अपनी अज्ञानता से न करने योग्य दान कर गुज़रता है और न भोगने योग्य भोग भोग लेता है, इसी कारण अपना धनादि व्यय करते हुए भी उसके फल में सफलीभूत नहीं होता ।

जैसे वर्तमान में हमारी बहिनें दान करने का एक मार्ग मन्दिर बनवाना पसन्द करती हैं, केवल इस खयाल से कि प्रतिष्ठा में धूमधाम हो कर नामवरी होगी व हमारा यश सर्वत्र फैलेगा परन्तु इस बात पर ध्यान नहीं देती कि मन्दिर मज़बूत बने व इसकी आजीविका का उत्तम प्रबन्ध रहे अथवा ऐसे स्थान पर मन्दिर बने जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ के मनुष्य धर्मालय के न होने से धर्म च्युन हो रहे हों मन्दिर में ऐसे स्थान भी बनाये जावे जिन में धर्मोपदेश सभादि कुशलता से हुआ करे और जहाँ भव्य जीव निराकुलता से सामयिक (ध्यान) व स्वाध्याय करे । इन बातों के विचार से शून्य आधुनिक बहिनें जहाँ तहाँ बीसों मन्दिरोंके रहते हुए भी मन्दिर-बनवा डालती हैं । चाहे अन्त में योग्य प्रबन्ध हो सके वा न हो सके । बस इसी से यथार्थ फल की भोका भी नहीं हो सकती ।

यही हाल आहारदान का है । जिस साधु व त्यागी

की प्रख्याति हो रही है उसके लिये दी रसोई तैयार होती है और यदि कहीं उसका आहार न हुआ तो कपाय बढ़ाया जाता है प्रख्यात साधु शहर से विहार कर गये कि बहिनोंने भी शुद्ध रसोई से छुट्टी पाई। छिपे छिपाये सीधे साधे क्षुल्लक ब्रह्मचारी आदि चाहे उपवास ही कपो न करें, कुछ परवाह नहीं। क्या बहिनो ! यही आहार-दान है ? कदापि नहीं।

हमको तो नित्य प्रति पात्रदान करना चाहिए। छोटे बड़े सभी रत्नत्रय के धारक त्यागी हमारे दानपात्र हैं। हमको अपने हृदय में सध पर यथार्थ दया भाव रख कर सन्मार्ग की वृद्धि का उपायस्वरूप दान करना चाहिए।

विद्यादान का तो कहना ही क्या है। इससे तो हमारी बहिनें प्रायः दूर ही भागती हैं। अभी तक हमारी स्त्री-समाज के हृदय में 'विद्या क्या वस्तु है ?' इस प्रश्न का अंकुर ही नहीं उत्पन्न हुआ है। विद्या कैसी अद्भुत सुप्रदायिनी रसायन है, इसकी खोज अभी तक हमने नहीं की।

परन्तु यदि इस विद्या-दान का विश्वास हमारी महिला-मंडली के हृदय पर स्थान पा ले तो क्या आज हमारे यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा गाढ़ परदा ही पड़ा रहे ? कदापि नहीं।

इस रसायन से दाता और पात्र दोनों का अविद्याकरो

मैल दूर हो कर उद्धार हो जाता है ।

बहिने ! वर्तमान मे ज्ञान-दान की ही परमावश्यकता है । और इसी से इसका फल भी बढ़ा चढ़ा है । जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता जिस जीव को होती है, उसको जितना लाभ अभीष्ट पदार्थ से होता है वैसा अन्य पदार्थों से नहीं । यदि कोई भूख से मरता हो और उसे आभूषणों से लाद दिया जाय तो क्या वह संतुष्ट हो सकता है ? कदापि नहीं । परन्तु शोक है कि हमारी बहिनों को यही अच्छा लगता है । इसी से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ यथार्थ दान नहीं होता । यदि यह कहा जाय कि यथार्थ भोग मे ही हमारा द्रव्य लगता है, तो यह भी ग़लत है ।

क्योंकि भोग वह है जिससे कम से कम किंचित् काल भी शारीरिक तथा मानसिक सुखो का अनुभव हो । जहाँ इससे उलटा है वह भोग नहीं । हमारे भोग ठीक उलटे हैं, दुःख की नींव डालनेवाले हैं, इसलिए यथार्थ नहीं हैं । जैसे एक पुत्र ने किसी माता की गोद भरी और माता ने भी अपना तन, मन, धन पुत्र के लिए खर्चने का संकल्प कर लिया, परन्तु किया क्या ? महा अहितकर कर्म, जन्म से ही आभूषणो से लादना पसंद किया । ऐसे ऐसे आभूषण योग्य समझे जिनमें पाव पाव भर कंकड़ पड़े हों जिनके भार से कोमल बालक के हाथ पैरो का चमड़ा उधड़ जाये,

फिर १०-१२ वर्ष का जोही हुआ कि विवाह का टंटा रचा, पकी सगाई टीका आदि रीतियों को प्रारंभ कर इसी बहुमूल्य शैशवावस्था में विवाह कर डाला । बस, लगा लगा धन व्यय होने का । कुछ रुपये सुनारों के यहाँ गये, कुछ दर्जियों के यहाँ गये, कुछ षातशवाज़ी में जल गये और कुछ भूरवाड़ी आदि में वाँटे गये । बस द्रव्य यों गया कि कर्जदार बनना शुरू हो गया और घाल-विवाह के कारण पुत्र-पुत्रियों का जीवन भी नष्ट हुआ; उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों पर भी पानी फिर गया । क्योंकि घाल-विवाह होने के कारण शीघ्र ब्रह्मचर्य भंग होने से नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं, सन्तान अशक्त, बुद्धिहीन, कम आयुष्क उत्पन्न होती है इत्यादि इत्यादि सैकड़ों संकट आ दवाते हैं । बस यही हमारे भोगों की इति श्री है ।

कहिण बहिनी ! ये कैसे भोग और केसा धन व्यय हैं । क्या ऐसे भोगों से हमको सुख मिल सकता है ? कदापि नहीं । जहाँ शरीर और द्रव्य दोनों का नाश है वहाँ सुख कैसा ?

प्रायः सभी कार्य हमारे ऐसे ही हो रहे हैं । कहाँ तक लिखा जाय लिखने से एक बड़ा भारी ग्रंथ बन सकता है; परन्तु हमें यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र होकराना है, विशेष नहीं । उपर्युक्त दृष्टान्त से समझ लेना चाहिये कि हमारे

यहाँ यथार्थ दान तथा भोग भी नहीं है । बस अन्त मे द्रव्य की तीसरी गति जो नाश है वही करना होता है ।

आज हमारी अज्ञान दशा से हमारे द्रव्य का सदुपयोग नहीं होता । सैकड़ों घर फिजूलखर्ची से व असहाय होने से उजड़े जाते हैं । सैकड़ो स्कूल धनाभाव से दूटे जाते हैं ये सब नाश के ही अङ्गोपाङ्ग हैं, न कि दान और भोग के ।

क्या हम लोग नित्य प्रति नहीं देखती हैं कि वर्तमान में भारत की अवस्था कैसी विचित्र हो रही है; सैकड़ों पढ़े-लिखे मनुष्य काम-काज की तलाश में फिरते हैं, परन्तु कहीं चिपकने को जगह नहीं मिलती । कितने ही साधारण मजदूर दिन भर घोर परिश्रम करते हैं, परन्तु कुटुंब-पोषण भार हो रहा है । सैकड़ों बालक, वृद्ध, विधवा तथा और और अनाथों का जीवन साल दर साल दुर्भिक्ष ले रहा है । इन सब बातों का कारण देश का धनाभाव ही है ।

फिर ऐसे कठिन समय में जिनको ऐश्वर्य मिला है उन पर संसार का बड़ा भार है । यदि वे लोग अपने द्रव्य को समयानुसार काम में नहीं लावेंगे तो मानव-जीवन के कृतघ्नी रहेंगे । अतः धनिक लोगो को अपना द्रव्य दान तथा भोग में इस विधि से लगाना चाहिए जिससे सदैव स्व-पर-कल्याण हो सके । बिना विचारे अज्ञानता से दानादि करने से द्रव्य का कैसा दुरुपयोग होता है । बिना ज्ञान के

सर्वस्व लगाते हुए भी कैसा फल मिलता है इसका एक दृष्टान्त नीचे पढ़िए ।

किसी एक बड़े शहर में एक जमीनदार रहता था । वह एक दिन अपनी गद्दी पर बैठा बैठा किसानों से लेन-देन की बात-चीत डांट साँस के कर रहा था (वर्तमान में जमीनदार और खेत जोतनेवालों में लड़ाई का नंबर वित्त से बाहर चढ़ा-बढ़ा है) कि इतने में एक महाकृश क्षीण-काय साधु आते दिखाई पड़े । उन्हें देख कर जमीनदार (मालिक) उठ कर खड़ा हुआ और विनयपूर्वक नमस्कार कर साधु को उच्च आसन पर बैठाया । इस समय ज्येष्ठ का महीना था इससे बड़ी कड़ी गर्मी पड़ रही थी, साधु भूख तथा गर्मी के कारण ही ऐसे क्षीण दिखाई देने हैं यह सोच कर उसने शीतोपचार अच्छा समझा और अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि पवित्र जल तथा एक मलमल का थान और थोड़ा मीठा मँगाओ ।

उसके पुत्र बड़े आज्ञाकारी और विनयवान् थे उन्होंने भटपट सब वस्तुएँ ला दीं । मालिक ने साधु को स्नान कराया और थान से मलमल फाड़ कर गीली करके उनके शरीर पर लपेट दी । फिर मीठा घोल कर गरवत बनाकर साधु को पिलाया । फिर ऋतु ने उज्ज्वल भोजन कराकर बड़ी नाक से साधु की सेवा की । किसी ने पंखा टाँका,

किसी ने पैर दबाये इत्यादि सेवाशुश्रूषा बाप बेटों ने मिलकर बड़े विनय से की। साधु महाराज सावधान होने पर फिर वन को जाने लगे। यह सब चरित पाल बैठा एक किसान बड़े ध्यान से देख रहा था। वह भी उठ कर साधु के साथ साथ बाहर आया और बड़ी भक्ति से साधु से कहने लगा “महात्मा आप अमीर लोगों के यहाँ ही आहार करते हैं या कमी हमारे ऐसे ग़रीबों के यहाँ भी पधार सकते हैं” ? साधु ने उत्तर दिया, “हमारे लिए ग़रीब अमीर सब एक ले हैं, जो मनुष्य समय पर जो कुछ देता है उसी में हमको संतोष हो जाता है।” यह सुन कर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, “प्रभो, एक बार हमारे ऊपर भी कृपा करें—अवश्य हमारे गाँव में पधारें” । यह कह कर किसान फिर भीतर आया और अपना काम कर अपने गाँव को चल दिया ।

नित्य प्रति किसान को उस साधु का ध्यान आ जाता था; उसके हृदय में आहार देने की भक्ति हो जाती थी। बाट देखते देखते करीब ६ महीने के बाद एक दिन साधु उस गाँव में आ निकले, उन्हें देखकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अपने ज़मीनदार के यहाँ की सब विधि स्मरण हो आई और उसी के अनुसार करने लगा। अपने पुत्रों से कहा कि पानी भर कर लाओ तथा एक गाढ़े का थान

थोड़ा गुड़ निकाल कर ले आओ । वस अब क्या था, चाप बेटे सब मिलकर महात्मा को स्नान कराने लगे। खूब स्नान करा कर गाढ़े का थान भिगो कर लगे लपेटने इस समय शीतकाल था अतः साधु के होश बिगड़ने लगे । ठंड से उन्होंने थान लपेटने को मना किया, फिर वह गुड़ का शरबत पिलाने लगा तो उसको भी मना किया । यह देख कर किसान को चुरा लगा । वह कहने लगा—

“महाराज मैंने तो पहिले मालिक के मकान पर ही आपसे पूछ लिया था कि आप गरीबों के यहाँ भी पधारते हैं वा नहीं । उस समय आपने बचन दिये थे । महाराज हम गरीबों के यहाँ महीन मलमल कढ़ाँ से आवें, हमारे यहाँ तो यही गाढ़ा कपड़ा और गुड़ है ।” इत्यादि इत्यादि कह कर उस अज्ञानी ने कपड़ा उढ़ा ही दिया और ज्यों त्यों कर शरबत पिला ही दिया । बेचारे महात्मा मारे ठण्ड के गिर पड़े और बेहोश हो गये । यह देख किसान ने पशुओं का सा उनका इलाज किया । अनेक घोर कष्टों के पश्चात् किसी तरह उन्होंने जंगल की राह ली

कहिप पाठिका बहिनो ! अज्ञान ने क्या कर दियाया ? क्या बेचारे किसान का समय साधु की सेवा में नहीं गया ? क्या उसका स्वर्ग नहीं हुआ ? अग्रश्य हुआ, परन्तु फल क्या हुआ ? मुख्यता से पाप ।

इस किसान को अज्ञानता ने दान न देने दिया और गर्मों की ऋतु में सेवने योग्य वस्तुओं को शीतकाल में सेवन करा कर विशेषरूप से उलटा पाप बन्ध कराया । बस यही गति आज हमारे भाई बहिनों की हो रही है । धन लगाना चाहिए विद्यादान में, परन्तु लगाते हैं और कामों में । धन लगाना चाहिए पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा में उनके शरीर की रक्षा में, परन्तु लगाते हैं विवाह में, पत्नों की जेवनार में, मिलनी में, भाजी बाँटने में, मुजरा नाच कराने में । बस संजानो ! ये सब क्रियाएँ किसान के समान उलटी हैं । अस्तु आप लोगों को अपना ढंग बदल देना चाहिए और इस अवस्था को बदल कर यथार्थ मार्ग पर आना चाहिए । जो रुपया फ़ज़ूलखर्ची में जाता है उसको ही दानादि शुभ कार्यों में लगाने से सब कुछ हो सकता है ।

वर्तमान की धनगति का दिग्दर्शन सुज्ञ पाठक-पाठिकाओं को हो चुका होगा । अब यथार्थ दर्शन भी कुछ कराया जाता है । इस पर ध्यान देना और अवश्य कुछ न कुछ ग्रहण करना कर्तव्य होगा ।

लक्ष्मी को दान और भोग में लगाने का उपदेश दिया गया है और ऊपर के श्लोक में दान शब्द सबसे पहले है । इससे सूचित होता है कि धन के लिए सबसे उत्तम उप-

योग दान है। सच है, दान करने से ही लक्ष्मी अपनी हो सकती है और जो इसके विपरीत समझते हैं' उनकी संपत्ति कभी न कभी उनके दुःख दायिनी होकर ही रहती है।

पूर्व काल में बड़े बड़े दानवीर इस भारत-भूमि पर हो चुके हैं, हमारे यहाँ गृहस्थियों से लेकर साधुओं तक ने दान किया है। देखिए, अब भी दक्षिण देश में हजारों वर्ष के ताड़पत्र पर सुई से लिखे ग्रंथ मिलते हैं। ये सब किसने किस भाव से लिखे थे! हमारे बीतरागी सर्व परिग्रहत्यागी पूर्व मुनियों ने ही निःस्वार्थ भाव से लिखे थे। पूर्व मुनियों का हम पर कैसा दान-भाग है जो अब तक हमको मोक्ष-मार्ग दिखाता है। इसी तरह पूर्व के गृहस्थ भी महा दानी होते थे। क्या अब हम लोगों को भी उसी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए! क्या अपने द्रव्य को दान के लिए नहीं समझना चाहिये? यदि जोड़ कर रख जावेंगे तो न मालूम पीछे से कौन भोग करेगा। स्वभाव है कि हमारा बुरा चाहनेवाला कोई वैरी ही भोग करे अथवा बदचलन पुत्र व्यसनों ने लुटावे, तब हमारी गाड़ी कमाई किस काम आई! व्यर्थ ही तो गई। यदि जोड़ें नहीं और मारामार भोगों में ही फँक दें तो और भी बुरा फल होगा। जो दान धर्म में न लगा कर केवल

धनदशा-दर्शन ।

सांसारिक प्रयोजन अपनी संपत्ति से निकालता है उससे संपत्ति भी बड़े २ कुकर्म कराती है वह मनुष्य ज़रूर पाप के फंदों में पड़ जाता है और अंत में कुछ भी हाथ में नहीं रहता, इसी जीवन में दरिद्रता और अपयश आदि के दुःख भोग लेता है ।

हमें स्वार्थत्यागी होना चाहिए । अपने तन, मन, धन को क्षणभंगुर समझ सदैव दूसरों के लिए खर्च करने को तैयार रहना चाहिए । जिन जीवों के ऐसे भाव रहते हैं वे ही परोपकार कर सकते हैं, वही इस मानव-जीवन से कुछ काम निकाल लेते हैं । पूर्वाचार्यों का मत है कि—
“कम से कम अपनी संपत्ति का दशवाँ भाग प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य दान में लगाना चाहिए नहीं तो वह संपत्ति अपवित्र है ।”

संपत्ति का दशवाँ भाग दान में लगा देना हमारे लिए कोई बड़ी भारी उदारता नहीं है, बरन एक कर्तव्य है । जैसे वाग का माली बढ़ने के लिये पेड़ों को छाँट देता है तभी वे खूब बढ़ कर फलते हैं । उसी तरह हम जब दशवाँ भाग निकाल कर दान में डालते रहेंगे तभी संपत्ति टिकेगी, अन्यथा नहीं ।

पाठक तथा पाठिकागण ! वर्तमान समय हमारे कर्तव्य पालन का ही नहीं है, बरन उदारता का है ।

इस समय हमको अपनी संपत्ति का पाँचवाँ भाग तो अवश्य दान में लगाना चाहिए। हमारे देश, जाति, धर्म का बहुत अधः पतन हो चुका है। यह घाटा हमारे गहरे दान से ही पूरा होगा। अन्यथा नहीं।

अँगरेज़, पारसी आदि कई उदार जातियाँ कैसे कैसे बहुत दान दे रही हैं। इनमें से एक एक चीर ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे डाली है।

हमारे यहां दान चार प्रकार का कहा है।

- १—आहारदान (चार संघ को भोजन कराना) ।
- २—औषधिदान (दवा-सेवा करना) ।
- ३—अभयदान (जीवों की रक्षा करनी। उन्हें भय से बचाना) ।
- ४—विद्या-दान (ज्ञान देना) ।

ये चारों ही दान समान फलदाता हैं। परन्तु हम प्रथम ही लिख चुकी हैं कि जिस समय जिसकी ज़रूरत हो वह सबसे अधिक फलदाता है। अतः आज कल विद्या-दान विशेष करना चाहिए। विश्व-प्रचार के लिए हमारी समाज में बड़े बड़े विद्यालयों की ज़रूरत है, बड़े बड़े छात्रालयों की ज़रूरत है, निःस्वार्थों दानी पण्डितों की ज़रूरत है, सम्यग्ज्ञानी गुरुओं की ज़रूरत है।

ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब कि दान की मात्रा बढ़े । अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुछ न कुछ दान करके पश्चात् मुख में ग्रास डाले । इससे अपना दान व्रत का पालन होगा और समाज का भी कल्याण होगा । नित्य प्रति चतुर्विध दान करने का अवसर देखते रहना चाहिए । विद्या-दान के लिए कुछ न कुछ द्रव्य निकाल कर भोजन करना उचित है । पश्चात् दिन भर जब जिस दान का अवसर आवे तब करना चाहिए । वर्तमान में हमारी लक्षाधीश बहिनें विधवा निपुत्री होने पर पुत्र मोल ले लेती हैं और उसको लाड़ प्यार से पालकर खूब भालामाल कर देती हैं । परन्तु शोक है कि वह पुत्र बड़ा होने पर उस माता का कुछ भी आदर नहीं करता किन्तु गालीगलौज मारपीट कर नाना कष्ट देता है । जो धन बड़ी कठिनता से संचय किया था उसको नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में उड़ा कर सामने फूँक देता है—यह लीला प्रत्यक्ष नित्य दिखाई देती है । सब लोग इससे परिचित हैं, विशेष लिखना व्यर्थ है । इसलिए हमारी विधवा बहिनो को चाहिए कि सभ्य जगत का दृष्टान्त लें और अपनी समस्त संपत्ति को एक एक उपयोगी दान में लगा कर लौकिक पारलौकिक सुखों की भोक्ता बनें, तथा अपने यशरूपी पुत्र को छोड़ने

का यत्न करें। दानी की कीर्ति संसार में अटल रह कर परलोक में सुखदायिनी होती है।

पाठिका वहिनो ! पुराणों में कितने ही द्रष्टान्त दान के महात्म्य के आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक एक राजा महाराजा जो व्रत तपादि नहीं कर सके हैं और अचानक मृत्यु की गोद में चले गये हैं उनके भी स्वर्ग तथा भोग भूमि इस दान के फल से ही मिली थी। निःस्वार्थ होकर एक बार भी यदि उत्तम दान दिया जावे तो उसका फल असीम होता है, कई भव तक पुण्य की गठरी साथ रहती है। दान देने से लोभ घटता है और लोभ कम होने से कर्मबन्ध भी कम होता है, इन्से उत्तरोत्तर आत्मा हलका बनता जाता है और एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि आत्मा अनन्त सुखरूप मोक्ष का पात्र हो जाता है। पूर्व-काल में हमारे यहाँ जैसा योग्य दान होता था वह पुराणों से प्रत्यक्ष विदित है। परन्तु अब भी कोई देश, कोई जाति दान-शून्य रह कर अपना कल्याण नहीं कर सकती। इसका द्रष्टान्त सुनिधः—

हम पहले यह ख्याल करती थीं कि योरोपादि देशों में धन ज्यादा है वहाँ के मनुष्य भारत के समान दुःख नहीं उठाते होंगे। परन्तु एक बार जब पंडित लालन विलायत आदि स्थानों से घूम कर आये और उन्होंने एक सभा में

वहाँ का चर्चन सविस्तर मय प्रमाणों के यथार्थ सुनाया तो मेरे विचारों के विरुद्ध कुछ और ही निकला । उनका कहना था कि उन देशों में कितने ही लोग गरीब भी हैं, जैसे यहाँ के भिखमंगे । ऐसी दशा में वहाँ के दानवीर मनुष्य ही इनका वेड़ा पार करते हैं । विशेष कर बड़े बड़े घर की स्त्रियाँ सड़क पर खड़ी हो जाती हैं और स्वयं गाँगना शुरू करती हैं । बड़े आदमी की लज्जा से जो मनुष्य सड़क से निकलता है कुछ न कुछ देता जाता है । बस धीरे धीरे घन्टे दो घन्टे में इन परोपकारिणी स्त्रियों के चरणों के निकट रुपये पैसों का ढेर लग जाता है और तब ये उस द्रव्य को उन कगालों को वाँट कर घर चली आती हैं । यह कार्य नित्य सैकड़ों मनुष्य करते हैं । तब वहाँ के गरीब जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, वरना दो दिन में ऐंठ कर रह जावें यहाँ गरीबों को भीख माँगने की आशा नहीं है । कहिए पाठिका बहिनी ! उन धनाढ्य स्त्रियों को दान से कितना प्रेम है, जो पर के लिए भीख माँगती हैं । बस हमारी समाज का उद्धार भी दान से ही होगा । आप लोगों को चेतना चाहिए और धन को दान में लगाकर आनन्द मानना चाहिए ।

आपका यथार्थ दान-ज्ञान दान है, इसमें सदा सावधान रहिए बुद्धिपूर्वक दान करना अपना मुख्य कर्तव्य समझिए ।

सद्ग्रन्थ तैयार कर चाँटना, ज्ञानी जनों की सेवा करना बड़े २ विद्यालय, बड़े बड़े विद्याभ्रम खोलना ही ज्ञान दान है। भोग भी यथार्थ ही होने चाहिए। वर्तमान के भोग, भोग नहीं, रोग हैं। यह पहले दिखला दिया गया है कि इन रोगों से पिण्ड छुड़ा कर मृत्युता का आश्रय लेना उचित है। उचित अवस्था होने पर बच्चों का विवाह करना चाहिए। सब से ज्यादा द्रव्य उनकी शिक्षा में लगाना उचित है तथा पुत्र-पुत्री दोनों को विद्वान् विदुषी बनाना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए।

आभूषण आदि वित्त के अनुसार साधारण ढंग डौल के बनाओ। वित्त से बाहर धन इनमें फँसा कर दुःख उठाना बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्येन कपडे भी हलके बनाओ। शोक है कि चारह महीनों में जिन बहिनों को सब समय पूरे भोजन का ठिकाना भी नहीं है वे भी विदेशी शिल्क, फुलचर खरीदने से नहीं हिचकती—यह घात ठीक नहीं है। विदेशी नाजुक वस्तुओं में रुपया मत फँसाओ, देशी टिकाऊ वस्तुओं को काम में लाओ। यदि धनवती हो तब भी यह घमण्ड छोड़ दो कि हम बड़े मालदार हैं। जब तक सारी समाज धनवती नहीं है तब तक तुम भी गरीब ही हो।

विवाह-समय के देन लेन तथा जीमन के नुकते

सबको हलका करना हमारे लिए परमावश्यक कार्य है । जब तक इनकी मात्रा कम नहीं होगी तब तक धनाभाव प्रत्येक गृहस्थ का कदापि नहीं मिट सकता । वर्तमान में प्रायः पुत्रियो का जन्म महा संकटमय गिना जाता है । इसका मुख्य कारण दैन दाहिजा है । हाथ धोओ ऐसे दाहिजे से जिसके कारण अपनी संतान भारी हो रही है । इसके अतिरिक्त जब तक इन कामों से रुपया नहीं बचाया जायगा कदापि विद्या शिक्षा के लिए ठिकाना नहीं हो सकता । जाति के अगुओं को चाहिए कि केवल थोड़ी सी पूजन की सामग्री और एक जीमन (जौनार) में ही विवाह का काम पूर्ण कर दें । यदि कोई अमीर कुछ खरचे बिना नहीं रह सकता तो वह रुपया, आभूषण जो कुछ देना चाहे विवाह चाइ कन्या व वर को दे देवे । परन्तु विवाह के समय हज़ारों को लेन देन करके जानि की रीति नष्ट नहीं करनी चाहिए । गरीब भाई देखादेखी करके मर मिटते हैं । उनको सत्पथ दिखलाना बड़ों का काम है ।

भारतवासी कभी लकीर के फ़कीर नहीं रहे हैं, वरन धर्म धन गौरव बचाने के लिए समय समय पर यथेष्ट उपाय करते ही गये हैं तभी अनेक राजाओं के राज्य का शासन, अनेक धर्म, अनेक विरुद्ध वस्तुओं के संयोग

होने पर भी अपने धर्म, कर्म स्वभाव से नहीं डिगे, जब देखा कि मुगल बादशाहों का अत्याचार है, वे लोग कुमारी कन्याओं को चलात् ले जाते हैं तो भ्रष्ट बाल-विवाह की रीति एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब धर्मवालों ने चला दी। इसके लिए कितने ही ग्रंथ लिख डाले, अनेक आपत्तियां उठाई, परन्तु अंत में ऐसा कर ही दिया कि कुमारी कन्या कोई दीखती ही न थी। इसके अतिरिक्त विद्या में भी वही कौशल दिखाया। राज्यभाषा को जीवन होम कर भी ऐसी कठिनता से अभ्यास किया जिसको देखकर विदेशवाले चकित हो जाते हैं। स्वधर्म प्रेम का कहना ही क्या है। इसकी रक्षा के लिए भी नये नये उपाय किये। संस्कृत के समय संस्कृत में ग्रंथ रचना की, प्राकृत के समय प्राकृत में, फिर गिरते गिरते जो भाषा चालू रही उसी में अनेक ग्रंथ रच डाले इत्यादि इत्यादि उपायों से ही हमारा पृथक् भाव संसार में आज तक बना है। वरना कभी के विदेशवालों में मिल जाते— अपनी सत्ता खोकर नष्ट भ्रष्ट होकर संसार से नाम उठा देते। क्या ये सब काम पूर्वजों के ही न थे? अब हम लोगों को क्या समयानुकूल सुधार व रीतिरिवाज में हेर फेर नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। दिल खोल कर जो जो कार्य बुरे हैं उनको उठा देना चाहिए!

जैसे फ़िजूलखर्ची, बालविवाह, कन्याविक्रय, स्त्रियों को न पढ़ाना, वैश्यानृत्य ये सब तमाशे अब आप लोगों को नहीं शोभते। इनको बंद करके समयानुकूल शिक्षा में पदार्पण करना चाहिए।

अपने धर्म कर्म बचाने के उपाय न सोचना एक दिन पतित होना दिवा रहा है। नवीन संतान के हृदय बिगड़ते जाते हैं। न अब उनके हृदय में अपने धर्म का महत्त्व है, न जाति का खयाल है, धड़ाधड़ विदेशी चमक पर दीपक पर पतंग की तरह गिर रहे हैं, इसमें नवयुवकों का दोष ही क्या है, जब उनके लिए घर में योग्य साधन ही नहीं है तब संतोष किये पेट पकड़े कहाँ तक बैठे रहें ? लपट झपट कर अन्याय मार्ग पर दौड़ जाते हैं।

बस, पाठक पाठिकावृन्दो ! इन सबको सुमार्ग पर लगाना तुम्हारे ज्ञान और वित्त पर ही निर्भर है। इसलिये आप लोगों को अपना ढंग ठीक करना चाहिए।

इस लेख के यथार्थ दर्शन में संक्षेप से आप लोगों ने वे बातें पढ़ी होंगी जो आपके धन, धर्म को बचावें, धन को योग्य दान व भोग में ही लगावें, नाश से बचाये रहें।

इस प्रसंग में एक बात यह और ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य की बाढ़ रोक देने से भी वह नष्ट हो जाता है। यह रोग भी हमारी समाज में खूब फैला है। एक मनुष्य ज़रा

धनवाला हुआ कि बाल-बाघों ने बागों का व्यापार छोड़ा, गद्दी तकिया लगाकर आराम करना ही धनिक अपना काम समझ लेते हैं। इसका फल यह होता है कि सैकड़ों घरों का दिवाला निकलता रोज दिखाई देता है। सारा व्यापार देश से निकल गया।


एक पैसे की दिवासलाई, एक चीनी का खिलौना, एक लेम्प तक सब बाहर से लेने पड़ते हैं। यह अवस्था साक्षात् नाश को पुकारती है। अनपक्व बालकों को आराम न सिखाकर व्यापार सिखाना चाहिए।

कहा है—“व्यापारे वसते लक्ष्मीः।”

अन्तिम सारांश यह है कि न्याय से आलस्यरहित होकर धन पैदा करना और फिर उसे ज्ञानपूर्वक दानभोग में लगाना ही रक्षा का मूल है। यावत् सम्पूर्ण त्याग न धन सके तब तक द्रव्य को सदुपयोग में लगाना चाहिए।



स्वदेश-सेवा ।



य सुज्ञ बहिनो ! सेवा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ? इसको विशेष समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि भारत की बहिनों का यह सहज धर्म है ।

अपने पूर्वाचार्यों ने स्त्री में इस गुण का होना परमावश्यक बतलाया है । वास्तव में बात भी यही है । जैसी सेवा-शुश्रूषा स्त्रियाँ कर सकती हैं वैसी पुरुष-समाज से नहीं हो सकती ।

सेवा करना हमारा मुख्य धर्म है । भारत की महिलाएँ नित्य प्रति देवताओं की पूजा सेवा करके अन्न ग्रहण करती हैं । तथा अहर्निश कुटुम्बियों की सेवा में लगी रहती हैं । थोड़ीसी इनी गिनी धनाढ्य बहिनों को छोड़ कर समस्त गृहस्थ-स्त्रियाँ प्रातः काल शय्या पर से उठतेही गृह-कार्य में लग जाती हैं, और उनकी इस सेवा के बल से ही पति-पुत्रादि भोजन-पान से निवृत्त होकर आजीविका-साधन व विद्या-लाभादि के लिए बाहर जा सकते हैं तात्पर्य यह है कि स्त्रियों में सेवा करने का अभ्यास स्वय-

मेव हो जाता है। जिस प्रकार फल, फूल, पत्ते सबका वास्तविक सार वृक्ष का मूलभाग ही है, उसी प्रकार सेवा की जड़ स्त्रियाँ हैं। जैसी सेवा-परायणा भारत की देवियाँ होती हैं वैसे योरोपादि विदेश-वासिनी स्त्रियाँ नहीं होतीं।

हमारे यहाँ की गृहिणी अपने आप को दासी मानती हैं और इसी भाव से सदा सेवा करती रहती हैं। पूर्वकाल में महिलाएँ केवल कुटुम्ब-सेवा ही नहीं करती थीं वरन् स्वदेश के प्रत्येक कार्य में भाग लेती थीं।

परन्तु अब वह नमय नहीं है। इस समय हमारी सेवा ने अत्यन्त सफीर्ण स्वरूप धारण कर लिया है। आज भी भारत उन अङ्गों से, जिनकी सेवा स्त्रियाँ करती हैं किसी दौर से कम नहीं है। परन्तु जिन-जिन अभागों अङ्गों की स्त्रियों ने उपेक्षा कर रखी है उन्हीं उन्हीं अङ्गों से अत्यन्त दुःखी होकर प्रायः मरणावस्था में हैं।

हम लोगोंने देश की सेवा, धर्म की सेवा, बिल्कुल ही छोड़ रखी है। इसी कारण पुण्यों के अनेक यत्न करने पर भी सुधार होना असाध्य हो रहा है। दिनों दिन कुरीतियाँ बढ़ती जाती हैं।

स्त्री-समाज का मूर्खत्व देश के उत्थान की जड़ का भीतर ही भीतर चुम्बी तत्त्व से जादू रहा है। स्त्रियाँ चेतनी तभी इस अधोगति से उबार होगा:—

माताये अंगर चाहे तो, यह देश सुधर जाय ।

यह देश सकल फिर भी विकट वीरों से भर जाय ।

यह दीन दशा हिन्द की, जानें न किधर जाय !

फिर हिन्द के बल, तेज से संसार हहर जाय ॥

— वीर पंचरत्न

प्रिय सुझ बहिने ! उठो, मातृभूमि को माता से कम मत समझो । इसकी सेवा करना भी अपना मुख्य कर्म है । तुमने अपनी कौटुम्बिक सेवा को ही पर्याप्त समझ लिया है । परन्तु वास्तव में वह पूरी नहीं है ।

जब तक देश की सेवा में हम लोग सहायिका न होंगी, यह कठिन कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता ।

परन्तु इस बात का विचार अवश्य रखना चाहिए कि जिन जिन साधनों से पुरुष स्वदेश सेवा कर रहे हैं उन्हीं उपायों से हम लोग कृतकार्य नहीं हो सकतीं । यद्यपि देशसेवा के अनेक अङ्ग हैं, परन्तु वर्तमान में सर्व साधारण स्त्रियाँ दो मार्गों से समुचित और सामयिक सेवा भलीभाँति कर सकती हैं । पहला मार्ग इतना सरल और सुसाध्य है कि प्रत्येक पढ़ी अनपढ़ी छोटी बड़ी, गरीब अमीर सभी बहिने उसपर सुख से चल सकती हैं । वह क्या है ? स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार । बहिने ! विदेशी वस्तुओं ने हमलोगों का कौसा सर्वनाश किया है, इसका

उल्लेख एक दो नहीं वरन् दस-तीस-ग्रन्थों में किया जाय तब भी पूरा होना कठिन है ।

इसका दिग्दर्शन मात्र आप को 'देश-दर्शन' आदि पुस्तकों के पढ़ने से हो सकता है । इस संक्षिप्त वर्णन में इतना ही कहना काफी होगा कि विदेशी वस्तुओं ने हरे-भरे भारत को उजाड़ बना दिया है । इसका सबसे प्राचीन कला-कौशल नष्ट हो गया । मनुष्य निठल्ले हो गये और घर घर में अन्न-बल्ल का टोटा पड़ गया । इस समय अपने देश में कितनी मँहगी बढ़ गई है, इसका विशेष उल्लेख करना निरर्थक है ।

सभी बहिने जानती हैं कि जितने खाद्य-पदार्थ (घो-दूध-चावल-दाल-गेहूँ-चना इत्यादि) २० वर्ष पहले एक रुपये में आते थे उतने खाद्य का अब चार रुपये में भी आना कठिन हो रहा है । प्रति वर्ष आवश्यक वस्तुओं की कमी से भारत-सन्तान क्षीण-शरीर होती जाती है ।

दिन भर मजदूरी करके भी देश में मजदूरों को भर पेट अन्न नहीं मिलता । एक बार चना चयेना, और एक बार सूखा-सूखा भोजन करना ही इन लोगों का समस्त खान-पान है । ऐसी अवस्था में ये लोग जिस यम-यातना का सामना करते हैं उसको ये ही जानते हैं ।

भोजन-सामग्री तो दिन पर दिन अल्प्य होही रही थी

इधर गत यूरोपीय महासमर ने वस्त्रों का भी अभाव कर दिया ।

कितने ही पत्रों में प्रकाशित हुआ है और कितने ही लोगों ने प्रत्यक्ष आँखों से देखा है कि सैकड़ों ही कुल-वधुएँ वस्त्राभाव से घर के बाहर नहीं निकलतीं । कितनी ही लज्जा के कारण जल कर भस्म हो गईं ।

बहिनो ! यदि हम मुहत्तों से विलायती कपड़ों के भक्त न होते तो आज यह दशा क्यों होती ।

हम लोग सैकड़ों वर्षों से अपने खेतों में रातदिन परिश्रम से उपार्जित की हुई रई को ४ सेर या ६ सेर के भाव से बेच कर यूरोप भेज देते हैं और वहाँ से उसी रई के खासे भूने मलमल आदि बन कर आते हैं । उन को २०) २० सेर से २५) २० सेर तक (एक एक थान) ख़रीद कर बड़े प्रेम से पहिनती हैं । इसी का यह परिणाम हुआ कि देश का न्यमस्त व्यवसाय नष्ट-भ्रष्ट हो गया । हमारे यहाँ के नवयुवक आधा जीवन नौकरी की खोज में बिता देते हैं । चूँकि सब चीज़ें विदेशों से आती हैं, इसलिए देश में काम बहुत कम है ।

प्रिय बहिनो ! समय के अनुसार इस समय हम स्त्रियों को उचित है कि फिर भारतभूमि को हिरण्यगर्भा करने के लिए अपने स्वार्थ का समूल त्याग कर दें । चिकन,

रेशमी आदि विलायती कपड़ों को जलांजलि दे दें । विवाहादि उत्सवों में भी, मोटे-महीन जैसे उपलब्ध हों अपने देश के बने कपड़ों से ही काम चलावें । इसी प्रकार विदेशी साबुन, तेल, फंघी, चूड़ी आदि वस्तुओं को छोड़ कर देशी चीजों काम में लानी चाहिये ।

बहुत सी बहिनों का मत है कि देशी वस्त्र इतने बढ़ियाँ नहीं मिलते जिनको पहन कर हम तीर्थ यात्रा, मन्दिर, समा सोसाइटी, विवाह शादी आदि में जाकर सम्मानपात्र हो सकें । परन्तु बहिनो का यह खयाल भ्रमात्मक है । देविप्र महात्मा गाँधी और उनका साग कुटुम्ब देशी, हाथ के बने, मोटे कपड़े पहनता है । क्या उनका सम्मान कम है ? कदापि नहीं ।

कितनी ही बहिनें कहती हैं कि ये बातें पुरुषों के आश्रोन हैं । परन्तु यह बात भी मिथ्या है ।

विदेशी वस्तुओं के व्यवहार करने का अधिकंश पाप, स्त्रियों के ऊपर ही है । हम लोग ही बाहर की चीजों की सगक-दमक पर मोहित होकर पुरुषों को खर्गदने के लिए विवश करती हैं । यदि बनिना समाज दृढ़प्रतिग हो जाय तो कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती । वरन् हमारे देश के व्यापारियों का उत्साह और द्रव्य— बढ़ जायगा और ये लोग सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुओं की मांग पूरी करने लगेंगे ।

हम लोग अपनी शक्ति को काम में नहीं लायेंगे तो उसका विकास होना असंभव हो जायगा । भारतवर्ष में केवल पाण्डित्य की ही आवश्यकता नहीं है वरन् विशेष आवश्यकता है जीवन-निर्वाह की । यदि सब मनुष्यों को अपना अपना जीवन सुख और शान्ति से बिताना आ जाय तो बड़ी ही सरलता से भारत सुख सम्पन्न हो जाय तथा सहज ही यहां से समस्त कुरीतियाँ तथा दुःख कूच कर जायँ ।

इस समय हमारे देश की बहिनें “मनुष्यरूपेण मृगा-ध्वरन्ति” इस कहावत को बिलकुल ही सार्थक कर रही हैं ।

कभी किसी गाँव के खेत पर या एक बगीचे के कुएँ पर तनिक विश्राम लेकर देखिए,—दस-बीस बच्चों की नंगी मूर्तियाँ आकर खड़ी हो जायँगी । जो कि मैल और धूल से लिपटे रहने के कारण भूत से मालूम होंगे ।

इन बच्चों के सिर के बाल आँखों में गिरने हैं, नाक टपक कर मुख में जाती है, हाथ पैर कीचड़ से सने रहते हैं । ये सब दृश्य देख कर वेदना से मानो हृदय शनशः—खरड होने लगता है । यदि इन बच्चों की माताएँ कुछ भी सम्भ्या होंगी तो ऐसी दुर्गति कदापि न होती ।

धनाभाव से ग्रामीण बहिनों को भोजन-वस्त्र की कमी हो सकती है, परन्तु बालक को स्नान करा कर स्वच्छ

रखने में, केश साफ़ करने में, चाल-चलन और बोल-चाल सुधारने में, किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वकर्त्तव्य-निष्ठ होने की।

बस, इन्हीं सब बातों का उपदेश अनपढ़ और अनभिज्ञ स्त्रियों को सदा देना चाहिए।

यदि अवकाश और योग्यता हो तो आस पास के ग्रामों में, क़स्बों में जा जा कर स्त्रियों को समझाना चाहिए। जब कभी तीर्थ-वन्दनादि के लिए जाना हो तब वहाँ भी स्त्री समाज में शिक्षा का प्रचार करने पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए।

अपना सेवक हो, ग़रीब हो, रंक हो, फ़कीर हो, सहृदयता और उदारतापूर्वक सबका हित करना ही सच्ची सेवा है।

“परोपकार चिन्तानां वसुधैव कुटुम्बकम्”।

इस वचन के अनुसार ‘मैं’ और ‘तू’ का भेद छोड़ कर सबका हित करो। भोली-भाली बहिनों को समझाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वच्छ रखे। उनके केश आँखों में पड़ कर जन्म भर के लिए अन्धा बना देते हैं। इसलिए उनको सदैव साफ़ रख कर स्वास्थ्ययुक्त बनावें। गाँव भर में जो एक दो ब्राह्मण पढ़े-लिखे हों तो उनके पास उन्हें पढ़ने के लिए भेजें परमात्मा का भक्त बनावें,

जिससे वे पापों से बचते रहें । अपने हाथों से कपड़े सी कर, पन्नाचें जिससे स्वल्प-व्यय में ही बच्चों का शरीर ढका रह सके । अपनी बहिनों को, इन्हीं सब बातों का उपदेश देना और स्वयं भी इनको बर्तना यही हमारी परम देश-सेवा है । यदि एक बहिन के प्रयत्न से १० बहिनों ने भी इन बातों पर ध्यान दिया तो देश की उन्नति में कुछ भी समय नहीं लगेगा । वर्तमान समय में स्त्री-समाज का हृदय उतना घृणित और अन्धकार-मय नहीं है जितना कि उनके अभ्यास घृणित हो रहे हैं । बड़ों की आज्ञा का पालन करना तथा उनके हितार्थ निरन्तर परिश्रम करना हमारी बहिन बड़ी सहृदयता से करती हैं । परन्तु इतना अध्यवसाय करने पर भी परिजनो एवं जन-समुदाय को हमसे यथेष्ट लाभ नहीं होता । इसका कारण केवल हमारा अज्ञानाच्छादित व्यवहार ही है । यदि हम अपने व्यवहार की सुई फेर दें तो क्षण भर में मिनटों के घण्टे और घण्टों के मिनट बन सकते हैं । यद्यपि इस समय भी भारत के कितने ही अज्ञ लोग स्त्रियों को केवल भोगोपभोग की सामग्री समझते हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है ।

अपने प्राचीन पूज्य महर्षियों ने माता को परम पूज्य स्थान दिया है । संसार की अखिल भाषा को उलट पुलट कर सबसे प्रिय और पवित्र शब्द एक मात्र—'माता,' 'माँ,'

‘मैंयां,’ ‘मामा’ या ‘मादर’ ही निकला है ।

पूर्वाचार्य जिस वस्तु को सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोपयोगी समझते थे उसी में मातृभाव की स्थापना करते थे ।

पृथ्वी को जगत का मूल या आधार समझ कर उसे स्त्रीलिंग मानते हुए, ‘माता’ कहा है । गो को विश्वपोषण कारिणी समझ कर “माता” शब्द से सम्मानित किया है इसी प्रकार प्रकृति देवी ने भी स्त्री-संसार को सर्वस्व सौंप दिया है । सन्तान का समस्त सगठन और आपत्तिकाल माता के भरोसे पर ही निर्भर है । दस मास का भारी उत्तरदायित्व भी माता के ऊपर ही है, जबकि पिता के लिए केवल १० मिनट काफी है । इस प्रकार संसार की मूलभूता हमारी वहिनें यदि अपने नित्यप्रति के व्यवहार को स्वार्थ-रहित, शुद्ध और सुयोग्य नहीं बना-वेंगी तो समस्त भारत के मूल में घुन लग जायगा । जब तक अपना भार हम लोग स्वयं न लेंगी, कदापि हमारी दशा नहीं सुधर सकती । “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” इन वाक्य के अनुसार क्या हम लोग स्वर्ग से भी प्यारी जन्मभूमि की सेवा करने की अधिकारिणी नहीं हैं ? अवश्य है ।

यदि अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ रख सकें तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा विशेष कार्य कर सकती हैं । अपना प्राचीन

इतिहास वीर माताओं को कैसा अमरत्व प्रदान कर रहा है जसवन्तसिंह की रानी महामाया ने अपनी वैधव्य-अवस्था में भी औरङ्गजेब से कैसा बदला लिया था और निहत्थी होकर भी किस प्रकार अपने छोटे पुत्र की रक्षा की थी ? उस समय सैकड़ों स्वकर्तव्य-निष्ठ राजपूत बिना किसी वेतन के केवल महारानी की आज्ञानुसार सेना में भरती हो गये और मुगलों के साथ भीषण युद्ध कर के भले प्रकार बदला ले लिया । इसी प्रकार महाराजा पृथ्वीराज की पत्नी किरणदेवी का नाम भी भारत की माताओं के लोकोत्तर गौरव को बढ़ा रहा है । जिस समय मुगल शाहशाह अकबर, छद्मभाव से नौरोज़ का मेला करता था और उसमें समस्त माननीय कुलवधुओं को वेगमों के पास आने के लिए बाध्य करता था, उस समय भारत की सती देवियाँ बड़ी भारी विपत्ति में थीं । क्योंकि इस मेले में किसी पुरुष को जाने की आज्ञा न थी, परन्तु अकबर स्वयं वेगमों के वेप में छिपा रहता था और चाहे जिस रमणी पर मनमाना अत्याचार करता था । यह बात शनैः शनैः लोगों को ज्ञात होने लगी परन्तु इसका प्रतीकार किसी से कुछ न बना ।

एक मेले में विवश होकर किरणदेवी को भी जाना पड़ा । यह महिलारक्ष वीरपत्नी अपने साथ एक सुरा

ले गई और केवल एक दासी के साथ ही मेले में पहुँच गई। इधर उधर घूमते घामते छद्मवेशी अकबर पर ज्यों ही नज़र पड़ी कि उसकी भारी आवाज़ से उसको शीघ्र ही पहचान लिया और उसके दाँव-घात से पहले ही स्वयं उसे पछाड़ कर उसके हृदय में छुरा भोकने का सामान कर लिया। अकबर इस अबला के परम चल को देख कर भौंचक सा हो गया और प्राणदान की भिक्षा माँगने लगा!

भारत की नारियाँ जितनी वीर होती हैं उतनी ही अगाध क्षमा भी रखती हैं। हिन्दु-रमणी की दया की तुलना हो नहीं सकती; हिंसा से भयभीत होना भारत का स्वाभाविक धर्म है। अतएव, देवी ने अकबर को क्षमा कर अभयदान दे दिया और बदले में कई बचन लेकर सदा के लिए नौराज़ का मेला बन्द करा दिया।

वहिनो ! इसी प्रकार पूर्व समय में अनेकानेक स्त्रियों ने स्वदेश के लाभार्थ अगणित कार्य किये हैं। इस समय उन्हीं की सन्तान होने के कारण हम लोगों का भी धर्म है कि अपने देश के धन-धान्य, धर्म-कर्म, गुण-गौरव और सम्मान की रक्षा करें।

इस समय हमारी वहिनों में शिक्षा और विद्या की नितान्त कमी हो गई है। इसी कारण अपने कर्त्तव्य का ज्ञान प्रायः नष्ट हो चला है। जो वहिनें शिक्षिता हो चुकी

है या हो रही है, उनमें विदेशी अभ्यास इतने बढ़ते जाते हैं कि जिसके कारण लाभ के स्थान में हानि हो रही है। पढ़ी-लिखी बहिनों को उचित है कि वे अपने देश के व्यवसाय को बढ़ावें। धर्मानुकूल चलें। प्राचीन विद्या और कला-कौशलों को चमकाएँ। परन्तु वे वर्तमान में इसके विपरीत करती हैं। विदेश के बने, विदेश के सिले, विदेश ही के साँचे में ढले हुए वस्त्रों को, जूतों को और आभूषणों को पहनती हैं। भारत की दो पैसे की कंधी को छोड़ कर एक रुपये के विलायती कंधे से केश सँवारती है। भारत के तिल, सरसों, नारियल आदि के तेल को छोड़ कर मिट्टी के तेल से तैयार किये मस्तिष्क को हानि पहुँचाने वाले, विलायती तेलों और लेवेण्डरों को लगाने हैं। विदेशी साबुनों को काम में लाती हैं। विदेशी गिरलाने बच्चों के लिए खरीदती हैं। करोड़ों रुपये का विदेशी माल स्त्रियों के भोगोपभोग में प्रतिवर्ष खपता है।

कहाँ तक कहा जाय विदेशी अभ्यासों ने हमारी विलासिता इतनी बढ़ा दी है कि भारत ऐसे कृषि-प्रधान देश के लिए कदापि सहनीय नहीं है। जिस देश में नित्य बाप अपने पड़ोस में सैकड़ों बुढ़ियों को धाटा पीसकर एक चार के भोजन से जीवन निर्वाह करते देख रही हैं, जहाँ सदैव किसी न किसी प्रान्त में भयानक दुर्भिक्ष से सैकड़ों

स्वदेश-सेवा ।

बच्चे मरते और बिकते हैं उस देश की निवासिनी शिक्षिता/ बहिनों को विदेशीय - विलासिता में द्रव्य व्यय करना एवं विदेशी फैशनों में समय बरबाद करना शोभा नहीं देता । अब इस भयानक रोग को हटाना ही ठीक है ।

जिस प्रकार रोगी मनुष्य का रोग दो कारणों से दूर होता है । एक अन्तरङ्ग और दूसरा बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग का कारण अर्थात् दैनिक सावधानी यानी रोज़ाना परहेज़ या नित्य नैमित्तिक संयम और बाह्य कारण औषधि सेवनादि ।

उसी प्रकार देश-सेवा के भी उभय अङ्ग हैं । यद्यपि द्वितीय कारण हमारे आधीन नहीं है बल्कि हमारे अधिकारि वर्ग के आधीन है तो भी अन्तरङ्ग देश सुधार सर्वथा हमारे आधीन ही है । हमारे सुचारु अभ्यासों पर निर्भर है ।

अतएव, हमारी देश-सेवा यही है कि हम स्वयं अपने और अपनी सन्तान के अभ्युदय का प्रबन्ध करें ।

तथा अपने देशनेताओं की आज्ञा का पालन कर देश के कल्याण में भाग लें । शुद्ध स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करें ।

स्त्रियो में उच्च विद्या ।



अब विद्या किस तरह प्राप्त होती है और इसका होना स्त्री-समाज में आवश्यक है या नहीं ? इस प्रश्न पर अब तक जैन-जाति ने विचार ही नहीं किया । यदि इने-गिने कितने एक बन्धुओं का विचार भी हुआ तो केवल इतना ही कि कन्याओं को साधारण विद्या सिखानी चाहिए, जिससे वे घर का हिसाब-किनाय कर लें और चिट्ठी-पत्री लिख लें । परन्तु इन संकुचित विचारों से ऊपर लिखा हुआ प्रश्न हल नहीं हो सकता ।

पढ़ना-लिखना व शिक्षा पाना केवल घर के बर्तों खानों के लिए ही नहीं है, न धन कमाने व उपाधियों से विभूषित होने के लिये ही है । बरन् जीवन को ज्ञानमय एवं तेजोमय बनाने के लिये है । तथा सुपथगामी और आत्मोद्धारि बनाने के लिए है ।

ये बातें अधूरी शिक्षा से नहीं हो सकतीं । यह तेजोमय जीवन उच्च विद्या से विभूषित होने वाले को ही प्राप्त होता है । बहुज्ञानी होकर ही यह आत्मा अपना और पर

का कल्याण कर सकता है ।

जिस प्रकार मरणासन्न सञ्जिपात वाले रोगी को कस्तूरी और चन्द्रोदय की एक दो पुड़िया लाभ नहीं पहुँचा सकती, उसी प्रकार जड़-मूल से कुरीतियों में फँसा हुआ मनुष्य थोड़े से ज्ञान सम्पादन से अपना हित नहीं कर सकता । जिस प्रकार रोग का प्रकोप और औषधि सेवन का फल स्त्री-पुरुष दोनों को एक साथ ही कष्ट एवं आनन्द देता है, उसी प्रकार अज्ञान और शिक्षा भी उभय जनों के लिये शृष्टानिष्ट है । जिस प्रकार पुरुष-समाज में विद्वान् मुखियों के बिना स्थाधारण जनों का उद्धार नहीं होता, उसी प्रकार विदुषी बहिनों के बिना स्त्री-समाज का उत्थान भी नहीं हो सकता ।

वर्तमान में स्त्रियों में धार्मिक वा लौकिक दोनों तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साधनों का अभाव पाया जाता है । कोई भी चिह्न ऐसे नहीं दीखते जिन से शिक्षा के समावेश की सम्भावना हो । इसी से कहना पड़ता है कि जैन-समाज में उपर्युक्त प्रश्न ही नहीं उठा है और न उस पर वाद-विवाद करके कुछ असली कार्रवाई की गई है ।

यदि हमारे धनाढ्य महाशयो का ध्यान इधर होता तो आज जगह जगह स्त्री-शिक्षा-भवनों के भंडे फहराते हुए दिखाई देते जैसे कि श्रीमन्दिरों के दीखते हैं । यदि विद्वानों

का भी ध्यान इधर झुकता तो इस समय स्त्रियों के योग्य अनेक उपयोगी पुस्तकों का संग्रह नज़र आता, जैसा कि अन्य सभ्य जातियों में है। परन्तु इन बातों की सर्वाङ्गीण पूर्ति तो बड़ी दूर है। कहीं चर्चा तक सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि शिक्षिता बहिनों का अभाव सा हो गया है। यदि यही तार कुछ दिनों तक और रहा तो बड़ी हानि की सम्भावना है।

इस परिवर्तनशील संसार में वृद्धि और हास ये दोनों बातें सदा होती राती हैं। जहाँ उन्नति नहीं है वहाँ अवनति अवश्य होती है। ऋषियों का वाक्य है—

“चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च” ।

बहिनो ! अब पहली वारी नहीं है। इस समय क्षति का पतनाला धड़ाधड़ जारी है। अब की मनुष्य-गणना से मालूम होता है कि दिनोंदिन जैनियों की जनसंख्या भयानक तरह से घटती जाती है। और प्रत्यक्ष में भी धन-धान्य और सौभाग्य आदि सब का ह्रास प्रति दिन दिखाई देता है।

इस पतन में आधा भाग स्त्री-जाति का अवश्य है। यदि स्त्रियाँ सुशिक्षिता नहीं हुईं तो आधी क्षति का रकना तो असम्भव ही है, वरन् पुण्य-समाज को भी हानि नहीं रुक सकती।

इस कष्टमय समय के समान सदा नेताओं को शिशु-रक्षण शील-रक्षण, सत्पात्रदान, शुद्धाचरण, फिजूलखर्ची-निषेध इत्यादि तरह तरह के विषयों पर चिन्ताते रहना होगा । और, स्त्रियों के उच्च शिक्षा पाये बिना यह एक भी कार्य न होगा । जैसे हलके और सदा पानी पर तैरने का दावा रखने वाले शाला के बकल भी, टूटे जहाज के साथ साथ, समुद्र में डूब जाते हैं, उसी तरह सूढ़ माता की गोद में बैठी भारत-सन्तान गारत हो जायगी । जब तक हमलोग अपने तन-मन-धन को उल्टी तरह से काम में लाना छोड़ कर, सीधे तरह से उपयोग न करेंगी तब तक हमारी गिरी 'दशा नहीं सुधर सकती ।

प्रथम ही हमारे मन में उच्च विद्या के लिए उच्च उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये ।

जिस प्रकार पूर्व काल में विद्याधर विद्या साधे बिना अपना कार्य-निर्वाह नहीं कर सकते थे उसी प्रकार हम लोग भी ८-१० वर्ष अध्ययन तप किये बिना कार्य-निर्वाह नहीं कर सकतीं । यह विचार प्रत्येक गृहिणी के हृदय में होना चाहिए । अपनी समाज में धन की कमी नहीं है, न परोपकारियों का ही अभाव है । केवल हितकर विचारों की कमी है ।

बहिनो ! हम लोगों को विद्या और शिक्षा के समय

पुत्र-पुत्रियों में भेदभाव न करना चाहिए ।

यद्यपि शिक्षा का ढंग एवं मार्ग भिन्न भिन्न प्रकार का होना उचित है तो भी पुत्रियों के विषय में कृपणता और संकोच न करना चाहिये ।

दोनों को भरपूर शिक्षा देनी चाहिए ।

प्रत्येक विषय में सन्तान को प्रौढ़ पण्डिता बनाता माता का परम धर्म है ।

हमने अपनी सैकड़ों बहिनों को उस समय दहाड़ मार मार कर रोते देखा है जब कि वे ८-१० वर्ष की छोटी सी अत्रोध पुत्री को पति के साथ गृहणी बनने के लिए भेजती हैं और किननी ही स्त्रियों को उस कष्टमय समय पर हृदय-विदारक विलाप करते देखा है जब कि उनकी अलगवयस्का पुत्री वैश्वय-दु.ख-सागर में डूब जाती है । परन्तु इतने पर भी बहिनें अपनी अपनी पुत्रियों को अवस्थापन्न (पूर्णवयस्क) होने पर विवाह करने का दृढ़ प्रयत्न नहीं करतीं और न किसी उचित स्थान पर शिक्षा पाने के लिए भेजने का साहस भी करती हैं ।

एक पुत्री के लिए रोती हैं और दूसरी के लिए फिर उसी बन्धन का सगठन करती हैं ।

छास पुत्रियों के विवाह में प्रत्येक वर्ष में जैन-ममाज का लाखों रुपया खर्च हो जाता है, लाखों रुपये का विदेशी

सिल्क (रेशमी कपड़ा) खरीदा जाता है। बहुत सा द्रव्य चेश्यादिको को दे दिया जाता है। यदि इस में से एक चतुर्थांश भी बालिकाओं की शिक्षा में लगाया जाय तो हमारे वहाँ ऐसे कई बड़े बड़े कन्या-महाविद्यालय हो सकते हैं जहाँ सर्व प्रकार की स्त्रियोचित शिक्षा पाकर हमारी बहिनें-स्त्रं-पर-कल्याण भलीभाँति कर सकती हैं।

इस समय के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे सुन्न विद्व भाई और बहिनें कटिबद्ध होकर स्त्रियों के लिए ऐसी उपयोगी संस्थाएँ स्थापित कर दें जिनकी खिग्ध छाया में लालित-पालित होकर पुत्रियाँ बड़े बड़े कार्य कर दिखावें। आज भी अन्य देशों में और अन्य समाजों में ऐसे ऐसे कर्म-वीर मौजूद हैं जिन्होंने एक एक विद्यालय स्थापित करने में अपनी समस्त सम्पत्ति दे डाली है।

अनेक महिलाएँ भी ऐसी हैं जिन्होंने कितनी ही सुपाठ्य पुस्तकें रच डाली हैं।

अपने यहाँ भी पूर्वकाल में विद्या-दैवी की आराधना अद्भुत रीति से सम्पन्न होती थी। विद्या-प्रचार के लिए ही अकलंक निष्कलंक देवों ने वीद्यों की पाठशाला में घोर कष्ट सहें थे।

यदि वही विद्या-प्रेम एक बार फिर दो चार महानुभाव आत्माओं में आ जाय तो किसी बात की कमी न रहे। इन


लोगों ने अपने जीवन को भयानक विपत्ति में डाल कर परदेश और पर-जाति में जाकर विद्या मीखी थी। किन्तु आजकल जैन जाति में लोग अपने घर के विद्यालय तथा आश्रमों में भी अपनी सन्तान को भेजने में बड़ा कष्ट पाते हैं।

धनी मानी जनों को कोई स्थान शिक्षा के योग्य उत्तम नहीं जँचता। इसलिए प्रिय पुत्र-पुत्रियों को आँखों के आगे से अलग नहीं करते और केवल जगह जगह की बसूया करते रहते हैं।

गरीबों में सामर्थ्य ही कहाँ है कि इतना अध्यवसाय कर सकें। तात्पर्य यह है कि सन्तान मात्र की शिक्षा-दीक्षा भ्रष्ट हो रही है।

बहिनो ! उठो इन पोच विचारों को छोड़ो। प्रकाश में आओ। विद्या की महिमा समझ कर सर्वस्व अर्पण कर दो पुत्रियों के पढ़ाने लिखाने में ज़रा भी मत हिचको। प्रत्येक प्राणी को सुमार्ग पर लगाना अपना कर्तव्य है। और यह बमूढ़ दृष्टिनामक सम्यक्त्व का अंग भी है। अज्ञान के घुँघट में मुँह लपेटे सैकड़ों बहिनें रोरोकर समय काट रही हैं। कोई कहती है कि हम पढ़ी नहीं हैं। कोई कहती है कि हमारी समझ में नहीं आता। कोई कहती है कि हम मूर्खा हैं। इन अपशब्दों के लाञ्छन को समाज से हटा कर उच्च कोटि की शिक्षा से सब को विभूषित कर दो।

मनुष्य-जन्म की दुर्लभता और ज्ञान की योग्यता ।



य वाचिका बहिनो ! आज मैं आपको इस विचार के चक्कर में डालती हूँ कि हमको मनुष्य-जन्म कितनी कठिनाइयों को पार करके मिला है और आगामी कब कब किस किस हालत में मिलने की संभावना है। आचार्यों का मत है कि संसारी जीवात्मा अनादि काल से अर्थात् सदा से इस दुनियाँ में घूम रहा है, क्षण क्षण में अपनी पर्याय बदलता रहता है, पर उसका नाश कभी नहीं होता। जिस तरह पानी कभी बर्फ हो जाता है और कभी भाप बन जाता है; परन्तु जल-स्वभाव नहीं छोड़ देता, उसी प्रकार यह जीवात्मा कर्मों के विद्यमान होने से कभी शेर, कभी गीदड़, कभी रंक, कभी राजा हो जाता है, परन्तु अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता। इतनी बात जरूर है कि एक दौ पर्यायों में तो इसकी कुछ उन्नति भी नज़र आती है। शेष जन्मों में यह बिलकुल बुरी गिरी

हालत में ही रहता है। वे सब अवस्थायें इसकी करनी के आधीन हैं। जब पुण्य कर्म करता है तब देव मनुष्य आदि गति को प्राप्त होता है और पाप करता है तब नरक निगोदादि कुगतियों में पड़ कर बहुत कष्ट भोगता है। नरक की जो सात धगतल हैं उन में क्या हो रहा है? इसका विचार करिए तब तो कलेजा काँपने लगेगा। नरक की सातों पृथिव्यों में क्रमशः दुःख बढ़ता है। कम से कम १०००० दश हजार वर्ष से लेकर ३३ तैंतीस सागर तक घोर दुःखों को यह जीवात्मा सहता है। इसी प्रकार पापोद्ग से यह जीव निगोद में पड़ जाता है। तब तो एकेन्द्री तन से बहुत काल संसार भ्रमण करता है। एक साल में जितना समय लगता है उतने समय में निगोदिया जीव १८ बार जन्मलेता है और मरण प्राप्त करता है। सिर्फ जन्म-मरण के दुःख भोगना ही उस पर्याय में जीवात्मा का काम रह जाता है। कोई काल लब्धि को पाकर इस पर्याय से निकल कर घड़ी कठिनाई में उस पर्याय को ग्रहण कर सकता है। इस में भी दो इन्द्री, तेइन्द्री, चतुरेन्द्री, पंचेन्द्री-सेनी, अरौनी इस प्रकार एक एक आगे की अच्छी दशा का पाना उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। इन सब कठिनाइयों को झेल कर घड़े शुभ कर्म के उदय से यह जीवात्मा वैधयोग से कभी मनुष्य-जन्म को

मनुष्य-जन्म की दुर्लभता और ज्ञान की योग्यता । ६१

पा लेता है। यहाँ मनुष्य-पर्याय में भी रोग, शोक, अंगों की विकलता, दरिद्रता आदि दुःखों में ही फँसा रहता है तथा विषय-कषायों के पोषण करने में अपना सारा समय खो देता है। कोई शुभोदयवाला आत्मा उत्तम कुल और अच्छी संगति पाकर मनुष्य-जन्म के फर्ज को पूरा करता है। बहिनो! हम लोगों ने सब दर्जों को पार कर, सब कठिनाइयों को रद्द कर, अखीरी दर्जा यानी उत्तम कुल, शुभ संगति, अंगों की पूर्णता, इत्यादि पाई है। इस अवसर को वृथा न खोना चाहिए। क्योंकि प्रथम तो इस मनुष्य-जन्म की स्थिति बहुत कम है। सो भी आज कल तो भारत की भूमि पर जीवन बहुत ही तुच्छ हो रहा है। इसलिए अपना कल्याण शीघ्र करना चाहिए। अपने लिए उस मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए जिससे इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण हो। अब विचारने का मौका यह है कि सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारा धर्म है कि सत्यज्ञान का प्राप्त करें। क्योंकि पहला कर्त्तव्य यही है। जैसे कहते हैं 'ज्ञान बिना करनी दुखदाई'। जब तक हमारे अन्दर ज्ञान नहीं तब तक लौकिक और परमार्थिक दोनों प्रकार के कार्य हम ठीक ठीक कदापि नहीं कर सकती। आज कल जो जो खराबियाँ हमारी खो समाज में हो रही हैं वे सब

ज्ञान के मन्द होने से ही हो रही हैं। हम लोग अपने अधिकारों को छोड़ती जाती हैं और अज्ञान के चक्र में पड़ गई हैं। नहीं नहीं हमको मनुष्य-पर्याय में ही केवल-ज्ञान तक पहुँचने की योग्यता है, और गति में नहीं। संसार के नाना प्रकार के दुःखों को मिटा कर आत्मा को शान्ति-सुख पहुँचानेवाला एक ज्ञान ही है, अन्य कोई पदार्थ इस लोक मात्र में नहीं है। ज्ञानी आत्मा को इस लोक और परलोक दोनों का हाल अच्छी तरह मालूम रहता है, सच्चे धर्म पर पूरा विश्वास रहता है, जिससे वह कभी दुःखरूपी कीचड़ में नहीं पड़ता, और चाहे गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, सर्व अवस्था में, वह सुख व सुयश को पाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठना है कि हमारी जैन-स्त्री-समाज में सम्यग्ज्ञान का विस्तार किस रीति से हो सकता है। प्रिय बहिनो ! आज कल एक ही मार्ग नज़र आता है। वह यह है कि, हम लोग खूब विद्या पढ़कर, विदुषी होकर जिन बाँधी का स्वाध्याय करके उस पर पूर्ण विश्वास रखने से ही, जानो हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। जब तक उच्च विद्या पढ़ कर जिन वचनों को नहीं देखेंगी तब तक कदापि हम अपने कार्यों को भले प्रकार नहीं कर सकेंगी। हमारा मुख्य धर्म यही है कि संसार में आकर, सबसे पहले, विद्यालाभ करके, शास्त्रों को पढ़ कर, अन्तरंग

मनुष्य-जन्म की दुर्भमता और ज्ञान की योग्यता

सुधारें। तब आगे किसी काम में कदम बढ़ावें। वर्तमान में हमारी जैन-बहिनें यह नहीं समझती कि पति के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए। पुत्र-पुत्रियों के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए। बहिनो, इसी अन्ध-विचार से हम नष्ट-भ्रष्ट होती जाती हैं। ऐसे विचारों को बदल कर अब सुमार्ग में आना चाहिए और विद्या लाभ करके, सम्यग्ज्ञानी बन कर, संसार-यात्रा रुफल करनी चाहिए; अन्यथा और भी बुरा होगा। जैसे कहा है। श्लोकः—


इत्यतिदुर्लभरुपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् ।

संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराके नरः सुचिरः ॥

इस मनुष्य-जन्म में अत्यन्त कठिन शास्त्र-ज्ञान द्वारा रत्नत्रय-स्वरूप ज्ञानको प्राप्त कर जो प्रमादी होता है वह विचारा मनुष्य संसाररूपी भयानक वन में बहुत काल तक घूमता है। इसलिए, प्रमाद छोड़ कर, ज्ञान के साधन और ज्ञान के मार्ग प्रचलित करने चाहिए।



समय की उपयोगिता ।



मय बड़ी विचित्र वस्तु है । संसार के परिणामन में यह सदैव सहकारी कारण है । बिना इसकी अनुकूलता के कोई भी कार्य होना असम्भव है । अतएव हम लोगों का चाहिए की इसका पूर्ण रीति से सम्मान करें । जब यह जिस तरह से अनुकूल हो तब हम लोगों को भी इसके अनुकूल होना चाहिए । यदि ऐसा न कर इसके प्रतिकूल चलेंगी तो अवश्य हानि होगी । मान लीजिए कि विद्याध्ययन के लिए, बाल्यावस्था में तथा विशेष ज्ञान-सम्पादन के लिए युवावस्था में समय अनुकूल होता है, यदि उस समय मनुष्य चुपचाप बैठ जाय और बुढ़ापे में विद्या पढ़े तो कदापि सफलीभूत नहीं हो सकता । इसी प्रकार यदि बचपन में व्यापारादि गृहस्थों के कार्य करे तो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक समय अनुकूल नहीं है । संसारी जीवों के जितने कार्य हैं सब योग्य समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं । इसलिए

बुद्धिमान् मनुष्य को सदैव इसका विचार कर अनुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए, वरन् छोटे से मानव-जीवन में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष में से किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती । जो समय विद्याध्ययन का है उसमें पूर्ण परिश्रम से विद्या पढ़नी चाहिए । छोटी सी उम्र में सन्तान की शिक्षा पूरी न कर केवल विवाहादि बन्धन में फंसाकर गृहस्त्री का भार डाल देना, समय के साथ कुश्ती लड़ना है । इसमें मनुष्य की ही हार होती है और सारा जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है । इसी प्रकार युवावस्था में नीति-शिक्षा ग्रहण करना, धन उपार्जन करना, परोपकार का कार्य करना, कुटुम्बपालन करना इत्यादि इत्यादि कार्य करने उचित हैं । यदि इनके प्रतिकूल केवल विषय कषायों का ही पालन-पोषण किया जाय तो सुख नहीं मिल सकता, जैसे कि बहुत सी हमारी बहिनें तरुणावस्था में केवल कलह और आलस्य में ही समय खेती हैं तथा इन्द्रियों के विषय में ही लगी रहती हैं । उनकी तरुण-अवस्था केवल स्वप्न मात्र हो जाती है, भ्रष्ट से बुढ़ापा दवा लेता है । इसी प्रकार जो पुरुष अपनी युवा वय को केवल विषय वासना में ही समाप्त करते हैं वे कदापि सुख नहीं पाते । जो मनुष्य समय का आदर करना जानते हैं वे सहज ही में बड़े बड़े स्वपर-हितकारक कार्य कर लेते हैं, और जो आलसी समय

का निरादार करता है वह पेट भर भोजन भी कठिनाई से पाता है। अतएव, सुझ बहिनों एवं बन्धुओं को चाहिए कि समय को हाथ से न जाने दें। द्रव्य नष्ट होकर फिर कभी प्राप्त हो जाता है, परन्तु समय लौट कर नहीं आता। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन भर का तथा क्रमशः तीनों उम्रों का, और इस में भी दिन भर का, एक घण्टे का और एक एक मिनट का भी समय-विभाग (टाइमटेबिल) सदैव तैयार रखना चाहिये। इस टाइमटेबिल में अच्छे कामों का ध्यान रख उसी में समय लगाना चाहिये।

यदि समय के सम्बन्ध में हम ज़रा भी सोच कर चलेंगी तो जीवन के अन्त में घुराइयों का टोटल बहुत कम होगा और बड़े बड़े कार्य सम्पुष्ट दीखेंगे। वृद्धावस्था में सर्व वस्तुओं से मोह त्याग आत्मकल्याण करना उचित है, धन से भी मोह त्याग कर के उसे सुजन परिवार को बाँट और शेष धन विद्या-दानादि में लगा कर निश्चिन्त होकर धर्मध्यान करना चाहिये। तभी समय सफल होता है। वर्तमान में हमारी बहिनें वृद्धावस्था तक गृह-कार्य का तथा आमद-खर्च का भार यह बेटियों को नहीं देतीं, अपने ऊपर ही लादे रहती हैं और व्यर्थ में समय नष्ट कर कुगति की भागिनी बनती हैं। इससे न बाल-बच्चों को ही संतोष होता है, न बूढ़ी बहिनो को ही शांति मिलती है, आकुलता-

ही में समय पूरा हो जाता है ।

यही हाल बहुत से बूढ़ों का भी है कि चाहे वे कितना ही धन उपार्जन कर लें, चाहे कितने ही सुजन परिवारों का विवाहादि कर लें, परन्तु उनको शान्ति नहीं होती । वे अपना समय किसी स्वपर-कल्याण में नहीं लगा सकते । गोरखधन्धे में ही जीवन-लीला को समाप्त कर देते हैं । परन्तु वहिने, यह मनुष्य-जन्म ऐसा सस्ता नहीं है जिसका संपूर्ण समय इसी तरह नष्ट कर दिया जाय, चरन् समया-तुकूल प्रवृत्ति रखने से ही सार्थक होता है ।

शेष वय में संपूर्ण भार पुत्र पौत्रादि पर छोड़ कर परोपकार का कार्य करने में समय लगाना चाहिये, भगवत् भजन करना चाहिये । कठिन कमाई के धन को जब तक दानादि में न लगावें तब तक आनन्द का भागी मनुष्य नहीं हो सकता । जिस तरह कोई बड़े परिश्रम से प्रातः काल से रसोई बनाकर दोपहर को खाना प्रारम्भ करना चाहे और उसी समय गर्दन पकड़ कर कोई निकाल दे तो केवल परिश्रम ही रह जाता है । उसी तरह स्वहस्त से दानादि किये विना अल्लली आनन्द नहीं मिलता । अतएव, समय विचार कर लाभ उठाने से किसी को वञ्चित न रहना चाहिए । क्या स्त्री, क्या पुरुष सब को समय का सदुपयोग करना अत्यावश्यक है ।

शिक्षा ।



हिनो ! शिक्षा कैसी अद्भुत वस्तु है और यह मनुष्य का किस तरह से रूपान्तर कर देती है, यह लिखना मनुष्य-शक्ति से सर्वथा बाहर है। यहाँ केवल यही कहना

बस होगा कि शिक्षा संसार के प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है, सबके हृदय का अनमोल भूषण है, जीवन के आनन्द का स्रोत है, जीवन-यात्रा के लिए वाहन है। बहुत से वयःप्राप्त मनुष्यों का विचार है कि शिक्षा पुरुष के लिए ही उपयोगिनी है, स्त्रियों के लिए नहीं। परन्तु यह कहना नितान्त भूल है। जो उत्तम पदार्थ है वह सब के लिए ही गुणकारी है और जो बुरा है वह सबके लिए दुःखदायी है। मिथ्री पुरुष को भी मीठी लगती है और उसी प्रकार स्त्री को भी स्वादिष्ट लगती है। जिह्वा, नाक कान आदि सब ही के एक सा कार्य करते हैं। इसी प्रकार शिक्षित अशिक्षित हृदय भी भले बुरे कार्य करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों एक सूत्र में बंधे हैं। इनका कार्य

पृथक् पृथक् देखना अज्ञान है। दोनों हृदयों के भावों से मिल कर जो भाव उत्पन्न होता है वही गृहणी का मूल मन्त्र होता है। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी कार्य-क्रम दीखता है; उस में आधा हिस्सा स्त्रियों का है। चाहे किसी जगह प्रत्यक्ष में स्त्रियाँ विशेष कार्य न भी करती हों परन्तु प्रकृति के परिणाम में सदैव अर्ध-भाग की स्वामिनी अवश्य रहती हैं। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि शिक्षा यदि पुरुषों के लिए आवश्यक है तो स्त्रियों के लिए भी परमावश्यक है। केवल भेद इतना ही है कि कतिपय कार्य ऐसे हैं जिनकी शिक्षा स्त्रियों के लिये गौणता से और पुरुषों के लिये मुख्यता से होनी चाहिए तथा इसी प्रकार कितने विषय ऐसे भी हैं जिनका विवेचन स्त्रियों के लिए मुख्यता से और पुरुषों के लिए गौणता से होना चाहिए। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा ही न दी जावे। संसार में एक कार्य पुरुषों के लिए अनावश्यक है तो दूसरा स्त्रियों के लिए अनावश्यक है। इसमें अपने अपने लक्ष्य की ओर विचार कर शिक्षा लेनी चाहिए। जिस तरह पुरुषों को बालक के स्तन पान कराने की शिक्षा दी जाय तो व्यर्थ ही है उसी तरह स्त्रियों को डाढ़ी बनाने की विधि सीखनी अनावश्यक है। परन्तु यह भेदभाव कुछ शिक्षा

का बाधक नहीं है। यह तो योग्यता का एक बाधक है। इससे घबड़ा कर पढ़ना, लिखना, शिल्पकला-कौशल, समस्त कार्यों को पुरुष के योग्य ही ठहराना और स्त्रियों को किसी विषय की शिक्षा न देना, यह न्याय-सङ्गत नहीं है। वर्तमान में बहुत से अंग्रेजी-साहित्य का मनन करनेवाले मनुष्य तथा अन्यान्य उदार-हृदय नवयुवकगण मुख से तो स्त्री-शिक्षा की प्रशंसा कर देते हैं परन्तु सच्चे हृदय से उपाय नहीं करते। अपनी माता, बहिनों तथा स्त्री की शिक्षा में वैसा यत्न नहीं करते जैसा कि पुत्रादि की शिक्षा में करते हैं। यद्यपि भारत के स्त्री-पुरुष सभी जन अधिकांश शिक्षा से कौलों दूर रहते हैं तथापि पुरुषों के लिए यह प्रश्न सबके दिल में हल हो चुका है कि पढ़ना लिखना शिक्षित होना हमारा काम है। परन्तु स्त्रियों के लिए अभी वचन मात्र की सहायता भी नहीं मिलती। यदि एक शहर में कोई कर्मयोग से एक दो स्त्रियाँ कुछ शिक्षा प्राप्त करने का साहस करती हैं, कोई ढंग निकालती हैं, तो झुण्ड के झुण्ड शत्रु खड़े हो जाते हैं। सबसे सीधा मार्ग यह कर रक्खा है कि भट से किसी तरह का कलंक उसके माथे मढ़ कर चारों ओर से निन्दा की दुन्दुभि-ध्वनि उसके कानों तक पहुँचा देना। यह अबलाओं का धैर्य नष्ट कर देती है। ये बेचारी निःसहाय

अपनी अपकीर्ति से जल कर घर में निकम्मी होकर बैठ जाती हैं ।

इसी प्रकार यदि कोई वहिन अपने थोड़े से ज्ञान और अनुभव से कोई उपकारी कार्य स्त्री-समाज के लिए करती है तो उसमें त्रुटियों का विवेचन होने लगता है । यहाँ तक कि कुछ न कुछ कलंक की दक्षिणा वहाँ भी पहुँच जाती है और इससे घबड़ा कर बेचारी संचालिका पंख सकोड़ने लगती है । जिस कार्य के बढ़ाने की चिन्ता में रात-दिन समय जाता था उसी के समेटने की चिन्ता पड़ जाती है । वन्द्युगणो ! इन्हीं सब घटनाओं को देख कर कहना पड़ता है कि स्त्री-शिक्षा का सत्य प्रेम अभी समाज के हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ है । यह जो कुछ वचनमात्र का प्रलाप सुनाई देता है वह केवल मात्र प्रेमाभास है । प्रिय सुज्ञ वन्द्युओ ! सत्य हृदय में सत्य वस्तु की खोज कीजिये । स्त्री-शिक्षा कितनी आवश्यक है, इस बड़े प्रश्न को सदैव ध्यान में रखिए । जब तक पुरुषगण इस विषय में तन, मन, धन का हवन नहीं करेंगे तब तक कदापि अज्ञानान्धकार दूर नहीं सकता ।

यदि प्रत्येक योग्य आय-व्ययवाला मनुष्य यह नियम करले कि मैं अपनी पुत्री को किसी न किसी विद्या में उच्चपद अवश्य दिलाऊँगा तथा संसार के शिक्षितों में

इसकी भी गिनती कराऊँगा तो ५ वर्षों में एक चौथाई हिस्सा तथा १० वर्षों में आधा हिस्सा और २० वर्षों में सारी नारी-समाज शिक्षित हो सकती हैं। पुरुषों में भी अशिक्षितों की संख्या का कारण स्त्री-शिक्षा का ही अभाव है। बच्चे को स्तन-पान करते करते शिक्षामृतपान करना आवश्यक है। माता अपने दुग्धामृत की घुँट के साथ शिशु को समस्त जीवन का ढंग पिला देती है। अतएव बन्धुओ ! अब आलस्य का समय नहीं है, अपनी अपनी स्त्रियों, बहिनों और पुत्रियों के विद्या-लाभ के लिए पूर्ण प्रयत्न कीजिये। धार्मिक ज्ञान के हेतु विद्यालय छात्रालय खोलिए। अथवा, जो खुले हैं उनकी सहायता कीजिए। उनमें अपनी संतानों को भेजिए। सावधान होकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार कीजिए। एक बुद्धदेव ने अपना धर्म समस्त एशिया में फैला दिया था और उसी प्रकार अक्रलंकदेव ने चंद्र की तरह हटा दिया था। उसी शक्ति की आवश्यकता इस समय फिर पड़ी है। उलम्हा हुआ काम वीरों से ही सुलभता है, एक में यह शक्ति कहिए कि काल के प्रभाव से नहीं है, तो दस बीस जनों का डेपुटेशन कहिए—कमीशन कहिए—कोई एक शक्ति समूह का सञ्चार कीजिए कि एक दार स्त्री-शिक्षा भागत में योग्य रीति से फैल जाय। एक बात यह भी है कि यह

शिक्षा-क्रम रुकने का नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता जोर कर रही है। इस ज़माने में चुप रहने से उलटी शिक्षा फैल जायगी और उसको हटाना फिर साध्य नहीं होगा, क्योंकि नीतिकारों का कथन है कि जड़ समझ सकता है परन्तु जड़वक्र नहीं समझता। अभी तक हम लोग जड़ स्वरूप ही हैं परन्तु कालान्तर में जड़वक्र होने का भवसर आने पर फिर सुधार नहीं हो सकेगा।

अभी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा का क्रम चल कर सुख की वृद्धि कर सकता है परन्तु फिर नहीं। फिर तो जो नवयुवकों की अवस्था है उससे शत-गुण बढ़ी स्त्रियों की हो जायगी। शिक्षा के अभाव से हानि तथा सद्भाव से जो लाभ है उनका वर्णन करना यहाँ पर व्यर्थ ही है। सब लोग जानते ही हैं। श्रद्धा तथा परिश्रम का ही अभाव है, इसी के लिए हमारी याचना है।



प्राचीन आदर्श महिलाएँ ।



नाचार्यों ने शास्त्रों में कथायें कितने निष्पक्षभाव से और कितने सत्यभाव से लिखी हैं—यह बात प्रत्येक सच्चे मनुष्य को भलीभाँति ज्ञात है। सत्यता और निःस्वार्थता को ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक पूर्वान्धारियों के वचन को हम

लोग स्वयं जिनेन्द्र की वाणी समझती हैं। इस कारण हमारे यहाँ पुराणों में जो जो छोटी बड़ी कथाएँ हैं वह एक एक सच्चा वृत्तान्त हैं, अर्थात् पूर्व का इतिहास हैं। जैन जाति की वर्तमान में ऐतिहासिक अवस्था ठीक नहीं है, परन्तु तो भी दो हजार वर्ष पहले का इतिहास पुराणरूप में पाया जाता है। यह बड़े गौरव की बात है कि हमारे इतिहासों में सिर्फ पूज्य पुरुषों का ही कथन नहीं बल्कि अनेकानेक जैन-महिलाओं को भी पूज्य पदवी दी है। एक एक रमणी ने ऐसे ऐसे कार्य किये हैं जिनकी देवों ने पूजा ली है और जिनके चरित्र से तथा जिनके शील से आज तक

भारतवर्ष ऊँचा बना हुआ है संसार में सब जगह की स्त्रियों में सदगुणवाली देवी होती रही है, परन्तु शील व्रत को जिस दर्जे तक जैन-महिलाओं ने पाला है वह दर्जा सबसे अद्वितीय है । आज इसी प्रसंगानुकूल एकछत्री रत्न की कथा संक्षेप से पाठिका वहिनो की सेवा में अर्पण करती हूँ—

वत्सदेश में रौरकपुर नगर था, जिसका राजा उदायन और रानी प्रभावती थी । एक समय राजा किसी शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने रण पर गये थे और प्रभावती रानी धैर्य के साथ घर पर धर्म-कर्म सम्पादन करती हुई दिन व्यतीत करती थी । उसी समय रानी की धाय मन्दोदरी (जो कि संन्यासिनी हो गई थी) अन्य बहुत सी संन्यासियों के साथ नगर में आई और प्रभावती से मिली । इसके साथ रानी प्रभावती का धर्म-विषय पर बहुत वाद-विवाद हुआ और अन्त में रानी से हार कर संन्यासिनी निरुत्तर होकर चली गई । विवाद में हारने के कारण वह बहुत क्रोधित हो गई थी । इससे रानी का एक सुन्दर चित्र खींच कर उज्जैनी के राजा चन्द्रप्रद्योत को जा दिखाया । वह देखते ही आसक्त हो गया और उसको यह भी मालूम था कि प्रभावती अकेली है, इसका पति लड़ाई पर गया है । अब क्या था ! कामी, अज्ञानी जीव क्या

क्या नहीं करता है ? यह चन्द्रप्रद्योत बहुत सी सेना सहित रौरकपुर आ पहुँचा । नगर से बाहर ठहर कर एक अति ललित मनुष्य उसने प्रभावती देवी के चित्त को चलायमान करने के लिये भेजा । दूत ने प्रभावती के सामने अपने स्वामी के रूप-सौंदर्य के साथ अनेक गुणों की खूब प्रशंसा की । परन्तु उस सती का मन-सुमेध कब हिल सकता था ? उसने कहा भाई ! उसके गुणादिक से मुझे क्या मतलब है । मेरे तो उद्धारण का छोड़ कर और सब पुरुष, पिता, पुत्र, भाईके तुल्य हैं । इत्यादि कह कर दूतको नगर से निकलवा दिया और नगर के क़िले पर अपनी सेना खूब प्रबन्ध के साथ बैठा दी । यह सब वृत्तान्त सुनकर चन्द्रप्रद्योत ने युद्ध करना प्रारंभ किया ।

जहिए भगिनियो, इस समय आप सोच सकती हैं, कि प्रभावती पर कैसा कष्ट पड़ा । पतिका संग्राम खतम भी न हो पाया कि अपने पर भी एक दुष्ट का आक्रमण हो गया परन्तु रानी प्रभावती बड़ी बिदुषी और धर्मपरायणा थी । सेना का प्रबन्ध तो प्रथम ही कर दिया था, अब वह अनशनादि की प्रतिष्ठा करके तिन मन्दिर में बैठ गई और दृढ़ चित्त से भगवत्-आराधन करने लगी । इस पुण्य से एक देव ने जो कि आकाश से जा रहा था चन्द्रप्रद्योत को उसके घर लौटा दिया और कौतुकवश परीक्षा करने के लिए आप

स्वयं चन्द्रप्रद्योत का रूप धारण करके प्रभावती रानी के पास मन्दिर में आया और ऐसा दर्शाया कि मानो लड़ाई में सब सेना को हराकर अब रानी के साथ दुराचार करना चाहता है । इसने अनेक पुरुष-विकार सम्बन्धी नाना तरह की कुटिलतायें की, परन्तु उस शीलमण्डिता रानी के चित्त को रञ्ज-मात्र चलायमान न कर सका । अन्त में हारकर अपना असली वेश प्रकट किया और संसार में घोषणापूर्वक प्रकट कर दिया कि प्रभावती महा शीलवती है । राजा उद्दयन रण से लौटने पर इन सब समाचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । अन्त में अपने पुत्र को राज्य दे कर श्रीवर्द्धमानस्वामी के समवशरण में दीक्षा ले ली और घोर तप करके अष्ट कर्म का नाश कर मोक्ष प्राप्त की । रानी प्रभावती भी पति के सदृश दीक्षा लेकर अर्जिका हो गई और परम तपकर अन्त में समाधि-मरण कर ब्रह्मस्वर्ग में देवी हुई । धन्य हैं इस प्रभावती का शील जो देव से बल्लत नहीं हुआ ! धन्य हैं इसका धैर्य जो अकेली रणाधि-पति बन कर मन्दिरजी में ध्यान लगाया ! धन्य हैं इसका त्याग जो अर्जिका हो सर्व त्याग कर मोक्ष-मार्ग पर आरूढ़ हुई । भगिनियो ! हम भी इन्हीं की सन्तान हैं । हमको भी यदि स्त्री-पर्याय प्राप्त है, तो पूर्व ललनाओं की भाँति इसे सफल करना अपना कर्तव्य है । अब विद्या-शिक्षा से अहचि

करते करते बहुत सा समय निकल गया, पशुवत हालत बहुत रह चुकी और तप संयम से बहुत विमुख हो चुकी, अब भी चेतना चाहिए। अपना कल्याण करके जगत् के लिए अपनी चरित्ररूमी कुछ सामग्री छोड़ जाना चाहिए मैं आशा करती हूँ कि भगिनियाँ इन कथाओं से कुछ लाभ अवश्य उठाएँगी और शास्त्र-सम्मत होने के कारण पूर्ण विश्वास करेंगी। कथा का पूर्ण खुलासा पुण्याश्रव पुराण में है।

२

इस संसार में मनुष्य-पर्याय के मुख्य दो भेद हैं—एक पुरुष, दूसरा स्त्री। ये दोनों गृहस्थ के मानव-जीवन-संगठन के दो अङ्ग हैं और सारे गृहस्थाश्रम की व्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है। स्त्री का आधार पति है। गृहस्थी का आधार स्त्री है। जिस घर में सुयोग्य गृहिणी है वह कभी निराधार नहीं होता। उस घर में थोड़े विभव में ही सारे कुटुम्ब का सुख संतोष की वृद्धि होती रहती है। और जिस घर में स्त्री मूर्ख, आलस्यपरायणा, कलहकारिणी है वह घर शीघ्र हीन दीन दशा को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। जिस तरह बिना नींव का वा कच्ची नींव का मकान देखते देखते नष्ट भ्रष्ट हो जाता है उसी तरह सुयोग्य गृहिणी के अभाव से गृहस्थी डगमगा कर नष्ट हो जाती है वर्तमान

मे इस विषय का ज्ञान बहुत कम लोगों को है । परन्तु हमारे पूर्वाचार्यों ने भलीभाँति इस विषय को दृढ़ किया है कि, गृहस्थ को बिना सुयोग्य गृहिणी के यथेष्ट सुख कदापि नहीं मिल सकता । दान, धर्म, अतिथि-सत्कार, सन्तान रक्षण, कुटुम्ब-पोषण इत्यादि कामों में अकेला पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता । सम्पदा से साँसारिक सुख मिलते हैं । सम्पदा की शोभा स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है ।

अब कहिय बहिनो ! इतनी बड़ी मानवपर्याय पाकर और अपार जंजालरूप गृहस्थी का आधारभूत होकर भी यदि हम लोग अपने को विद्यावती, सुशिक्षिता, धर्मपरायणा, साहसधारिणी, उदारचित्ता न बनाये तो क्या कभी स्वपर हित-साधन करके अपना जीवन सफल कर सकती हैं ? कदापि नहीं । आज हम और हमारे भाई समझते हैं कि स्त्रियों का शिक्षिता होना न्याय-संगत नहीं है । उच्च विद्या, उच्च शिक्षा पुरुष-पर्याय का भाग है । परन्तु ऐसा विचार करना हम लोगों का भ्रम है । हम में यह सब शक्ति विद्यमान है, परन्तु ऊपर से शिक्षा न मिलने के कारण सब दबी रहती है और भाग्यवश किसी को मौका मिल जाता है तो यह सब गुण व्यक्त (प्रकट) भी हो जाते हैं । देखिये, स्त्री का चित्त कैसा उदार होता है । एक रसोई-मात्र का ही दृष्टान्त लीजिए । गृहिणी रसोई बनाती है, और नाना तरह

के व्यञ्जन स्वहस्त से बनाकर सारे कुटुम्ब को सानन्द खिलाती हैं। पीछे से बचा-खुचा आप खाती हैं। यदि उसमें भी कमी हो गई तो कुछ खेद नहीं करती बल्कि समस्त कुटुम्ब, पति, पुत्र आदि के भरणपोषण में ही सारा समय बिताती हैं। कहिए यह कितना बड़ा स्वार्थ-त्याग है? लाखों रुपये की पिता की दौलत तथा लाखों का पति का पेश्वर्य्य होते हुए भी हमारी भारत-भगिनियों को उसकी परवाह नहीं रहती? थोड़े वस्त्राभूषण में ही बहुत सा सन्तोष कर लेता हैं। पूर्वकाल में कौसी कौसी परिडता, चतुरा, पति-व्रता, स्त्री-रत्न हमारे ही वंश में उत्पन्न हो गई हैं जिनका अनुकरण करना अपनी शक्ति-अनुसार सब बहिनों का कर्तव्य है तथा उस मार्ग का अवलम्बन करना हमारे प्रत्येक बन्धु का कर्तव्य है। इसी प्रकार गृहस्थ धर्म की सेवा करके और अनेक जीवों को लाभ पहुँचा कर, सन्तान की सुरक्षा कर, वीर मोक्षमार्गों पुत्र को पैदा करके, जिस देवी ने अपना कल्याण किया था उसकी कथा संक्षेप में, संकेत मात्र, यहाँ पर कही जाती है।

‘इसी आर्यखण्ड में मगध देशस्थ राजगृह नगर में उपश्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनको एक दिन दुष्ट घोड़ों ने भान कर एक बड़े वन में गिरा दिया। वहाँ पर राजा के साथी कोई भी न थे। उस वन में एक

यमदंड नामक क्षत्री रहता था । उसने राजा की बहुत सहायता की और उसके एक बड़ी रूपवती सुशीला कन्या थी जिस पर मोहित हो राजा ने क्षत्रिय से कहा कि मेरे साथ कन्या का विवाह कर दो । यमदंड ने यह प्रतिज्ञा करवा कर कि, "मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा उसी को राज्य देंगे" अपनी पुत्री का विवाह उपश्रेणिक महाराज से कर दिया । वह बड़ी प्रसन्नता से घर आकर वास करने लगे । कुछ दिनों में इसी स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चिलातीपुत्र रखा गया । राजा के और कई रानियाँ थीं जिनसे कई और भी पुत्र पैदा हुए थे । सबमें उत्तम बहु-गुणी उपश्रेणिक केश्रेणिक नामक पुत्र था । एक दिन ज्योतिषी द्वारा राजा को यह मालूम हुआ कि मेरे राज्य का अधिकारी श्रेणिक पुत्र होगा । यह जान कर और चिलातीपुत्र को राज्य देने का वचन निष्फल होता जान उन्होंने श्रेणिक कुमार को कुछ दाय देकर राज्य से निकाल दिया ।

यह श्रेणिक बड़े विद्वान्, स्त्री-परीक्षक और पराक्रमी थे । अनेक देशों में पर्यटन करते करते नन्दीग्राम नाम वाले नगर के सभामण्डप में आये । यहाँ एक इन्द्रदत्त वणिक से मिले और उससे मामा का रिश्ता जोड़ कर "मामा" !! पुकारने लगे । इन्द्रदत्त भी परदेशी था । इस

लिए श्रेणिक और वे दोनों वहाँ से चले । रात में कई जगह टिके । वहीं एक वौद्ध गुरु से जठराग्नि का उपदेश भी मिला, जिससे श्रेणिक वौद्धधर्मो हो गया । (इसकी रानी चेलना ने जैनधर्मो बनाया था ।) रास्ते में श्रेणिक ने इन्द्रदत्त से कहा कि (१) मामा ! हम लोग दोनों जिह्वा के रथ पर बैठ कर चलें । (२) फिर आगे चल कर जल भरा तालाब देख कर श्रेणिक ने जूते पहिन लिये तथा (३) वृक्ष के नीचे छाता लगा लिया । (४) फिर और आगे मनुष्यों से भरे ग्राम को देख कर पूछने लगा कि यह गाँव बसा है या उजड़ा । (५) इसी तरह एक स्त्री को उसके पति द्वारा डाँटते देख कर पूछा कि खुली है कि बन्द । (६) एक मुर्दे को देख कर पूछा कि मामा यह अभी मरा है या पहले से ही मरा था । इत्यादि, कई गूढ़ प्रश्न किये, जिनको सुन कर इन्द्रदत्त कुछ नहीं बोला और समझने लगा कि यह पागल है । अन्त में शहर के निकट एक तालाब पर श्रेणिक का साथ छोड़कर वह घर चला गया । इन्द्रदत्त के एक बड़ी गुणवती, रूपवती, नन्दश्री नाम की पुत्री थी । वह पिता को देख, वित्तय सहित प्रणाम कर, पूछने लगी कि पिताजी आप अकेले ही आये हैं या कोई साथ भी आया है ! पिता ने कहा कि पुत्री एक बड़ा रूपवाला युवा मेरे साथ साथ शहर के बाहर तक आया है, पर दुःख की बात

है कि उसकी बातचीत से वह पागल मालूम होता है । नन्दश्री ने कहा कि पिताजी वे बातें क्या हैं ? कृपाकर कहिए । इन्द्रदत्त ने श्रेणिक के सब प्रश्न पुत्री से कह सुनाये । उसने कहा, पिताजी ! वह युवा पागल नहीं, बल्कि बड़ा चतुर होगा, उसकी परीक्षा करनी चाहिए—

(१) जो उसने जिह्वा के रथ पर चलने की बात कही थी उसके अर्थ बातचीत के हैं वार्तालाप में थकावट नहीं होती ।

(२) जल देख कर जूते इसलिए पहिने कि जल में काँटे आदि नहीं दीखते ।

(३) वृक्ष पर कौवे आदि कीबीट का भय ज़ियादा होगा, अतएव छाता लगाया होगा ।

(४) मनुष्यो से भरे गाँव में आप लोगों ने भोजन सत्कार पाया हो तो उसे बसा हुआ समझें नहीं तो ऊजड़ समझना चाहिए ।

(५) स्त्री यदि विवाहिता है तो बँधी और व्यभिचारिणी है तो खुली समझनी चाहिए ।


(६) मनुष्य यदि यशवाला था तो जानना चाहिए कि अभी मरा है और अपकीर्तिवाला था तो समझो कि पहले ही से मरा था । इस प्रकार सब प्रश्नों का उत्तर उस बुद्धीमती नन्दश्री ने पिता को समझा कर भ्रम दूर कर दिया । अन्त में श्रेणिक की परीक्षा करने के लिए और

भी उपाय किये । एक दासी को बहुत थोड़ा तेल देकर तालाब के पास बैठे श्रेणिक के पास भेजी और कहला भेजा कि इस तेल को लगा कर स्नान कर मेरी स्वामिनी के घर आना । दासी श्रेणिक महाराज के पास गई । तब उन्होंने ऋट ज़मीन पर गड्ढा करके उसमें जल भर कर उस पर तेल रखवा लिया । उसी तेल को लगा कर स्नानादि कर श्रेणिक महाराज (दासी के बताये अनुसार) नन्दश्री के यहाँ गये । मार्ग में कीचड़ बहुत थी । उससे श्रेणिक महाराज के पैर सन गये थे । नन्दश्री ने एक ऋटोरी में बहुत थोड़ा जल लाकर दिया और कहा कि इससे पैर धो कर भीतर चलिए । श्रेणिक ने प्रथम पैरों की कीचड़ सूखी झाड़ डाली और पीछे थोड़े जल से पैर धोकर भीतर चले गये । फिर नन्दश्री ने और कई परीक्षाएँ कीं । सब में श्रेणिक महाराज को चतुर पाया । तब नन्दश्री ने कहा कि आप आज मेरे यहाँ ही भोजन कीजिए । श्रेणिक महाराज ने इसके उत्तर में कहा कि आज मेरे लिए पराये घर का भक्ष त्याज्य है । इसलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता । मेरे पास चावल में बँधे बहुत थोड़े चावल हैं । यदि इनसे तुम व्यञ्जन तैयार कर दो तो मैं खा सकता हूँ । नन्दश्री ने उन चावलों को पीस कर बड़ी चतुराई से पूये तैयार कर दासी के

हाथ विकवा दिये, इन पूर्यों के सुघड़ सुन्दर आकार पर प्रसन्न होकर नागरिक लोगों ने अच्छे दाम भी दिये । इन दामो से नन्दश्री ने सामग्री खरीद कर बहुत प्रकार के व्यञ्जन बनाकर श्रेणिक महाराज को भोजन कराया । अन्त में परस्पर परीक्षा होने से दोनों का मन प्रसन्न हुआ और इन्द्रदत्त ने नन्दश्री का विवाह श्रेणिक महाराज से कर दिया । ये दम्पती अत्यन्त सुख से रहने लगे । इनके अभयकुमारादि संसार के परम हितैषी पुत्ररत्न पैदा हुए । अन्त में वर्धमान स्वामी के समवशरण में नन्दश्री ने अर्जिका की वृत्ति धारण कर अपनी पर्याय सफल की तथा अन्य कितने ही जीवों को उपदेश देकर संसार से पार किया । धन्य है इस जैन-रमणी-रत्न को, जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है !

कहिए, बहिनो ! पूर्वकाल में नन्दश्री इतनी चतुर न होती तो किस तरह अपने पूज्य पिता का सदैह दूर कर श्रेणिक महाराज की प्रिया बनती ? इससे अब सब भ्रम छोड़ कर, स्त्री-समाज को सुशिक्षिता होने में कुछ भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए ।

स्त्री-समाज में समाचारपत्रों की आवश्यकता ।



वर्तमान काल में समाचारपत्रों में कितनी शक्ति भर रही है ? इसके कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्ष दीखता है, जिन जिन समाजों में जिन बातों का परिवर्तन हुआ है तथा आन्दोलन हो रहा है वह सब समाचारपत्रों की ही महिमा है । भिन्न भिन्न स्थानस्थ हजार मनुष्यों को एक मनुष्य प्रति दिन एक एक करके समझावे तो क़रीब पौने तीन वर्ष समझा सकता है और वही व्यक्ति अपने उपदेश को हजार अक्षरों की कापियों में लिखकर पोष्ट द्वारा एक साथ चाहे तो हजार मनुष्यों को समझा सकता है । अतएव, यह निश्चय है कि उपदेश फैलाने के लिए वर्तमान में समाचारपत्र प्रबल कारण हो रहे हैं । खेद का विषय है कि हमारी स्त्री-समाज में प्रकाश डालनेवाली कोई पत्र नहीं है । पुरुष-संबन्धी शिक्षाओं से पुरित कई पत्र निकलने हैं और विशेष कर पुरुषों के ही लिखे हुए लेख होने के कारण स्त्रियों पर प्रभाव नहीं पड़ता है । यही

स्त्री-समाज में समाचारपत्रों की आवश्यकता । ११७

कारण है कि किसी नवीन बात का आन्दोलन स्त्री-समाज में नहीं हो रहा है। आज जो हालत हमारी स्त्री-समाज की हो रही है वह सभ्य भगिनी-बन्धुओं से छिपी नहीं है। इस समय देश भर में किसी प्रदेश में परदा के कारण, कहीं विषय-लिप्तता के कारण, कहीं कषायों की अधिकता के कारण, हमारी सारी समाज में सदुपदेश का दिवाला हो रहा है। संसार-संबन्धी जो उपयोगी बातें हैं, जिनका कि सब समाजों में क्रमशः प्रचार हो रहा है, उन बातों की हवा तक हमारी बहिनों के पास नहीं जा सकती। खेद का विषय है कि हमारी आत्मा की अज्ञानावस्था हो रही है। यद्यपि अज्ञानता के मुख्य कारण हमारे किये हुए पुरातन व नवीन कर्म हैं तथापि निमित्त कारण आज कल के सुज्ञ भाई और बहिनें भी हैं, जिन्होंने ऐसे निमित्त मिला रखे हैं कि जिनके कारण मूर्ख स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार का कोई मार्ग ही आज तक नहीं खुला है। प्रिय बहिनो! सुज्ञ बन्धुओ! अब इस अपयश को अपने पर से हटाना चाहिए और शिक्षा-प्रचार के साधन समाचारपत्रों को स्त्री-समाज में बढ़ाना चाहिए।

एक एक प्रान्त में कम से कम, एक पत्र भी उच्च कोटि के लेखों से सुसज्जित होकर खास स्त्रियों के हितार्थ प्रकाशित होना चाहिये। यह पत्र महिला द्वारा प्रकाशित और

सम्पादित हो तो अधिक उत्तम है । परन्तु जब तक ऐसा न हो सके तब तक स्त्री-शिक्षा-प्रेमी भाइयों को ही इसका सम्पादन करना चाहिए ।

हमारी बहिनों का भी उचित है कि नित्य प्रति समाचारपत्रों को पढ़ा करें । यदि हम लोग गुणी जनों के परिश्रम का आदर करने लगेंगी तो अवश्य ही उत्तम पत्र भी प्रकाशित होने लगेंगे ।

पत्र और पुस्तकों के पढ़ने में जो समय लगे उसको व्यर्थ न समझना चाहिये । ज्ञान की आराधना में जितना समय व्यतीत होगा वह सब लाभदायक है । कवि का चवन है—


“काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धामताम्” ।

अर्थात् बुद्धिमान मनुष्यों का समय शास्त्र के देखने में ही जाता है ।

इसी प्रकार जो द्रव्य इनके खरीदने में लगे उसको भी निरर्थक मत समझो । वरन् अपने भोग-विलास की सामग्रियों से मूल्य घटाकर पत्रों के और उत्तम पुस्तकों के लिए व्यय करो ।

हर्ष का विषय है कि अब जैन महिलाओं के लिये जैन महिलादर्श मासिक पत्र निकलने लगा है, इसी प्रकार अनेक पत्रों का जन्म होगा तब स्त्री समाज में उपदेश का प्रचार होगा ।

कन्या-महाविद्यालय ।



आर्वे वीर बाला वीर-बाला-विश्राम में ।
पाने को उजाळा ज्ञान बाला विश्राममें ॥
देवी हो निराली देश कष्टों को टाल दें ।
माता के गले में मोद-माला ला डाल दें ॥

—बनलता



य बहिनो ! आज बड़े हर्ष के साथ
स्वागत आशाकुसुमों का एक
सामान्य उपहार आप की सेवा में
उपस्थित किया जाता है, आशा है
कि आप लोग इन कुसुमों के सहारे
फल-प्राप्ति का प्रयत्न भले प्रकार

सोच सकेंगी ।

इस समय हमें इस बात का बड़ा हर्ष होता है कि हम
लोगों का दल दिनोंदिन बढ़ता जाता है ।

क्योंकि मनुष्य मात्र का यही विचार रहता है कि
समस्त सांसारिक आत्मार्थ हमारे सदृश ही हो जायँ,
यद्यपि ऐसा होना असम्भव है, प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक

भिन्न प्रकार के भाव होते हैं। परन्तु तो भी सब मनुष्य अपनी अपनी तरफ़ खींचातानी में लगे हैं और जिसका दल बढ़ जाता है वही प्रसन्न, मान्य-सुज्ञ-विज्ञ कहलाने लगता है। इसी अवस्था में रह कर बहिनों, आज हम लोग भी आनन्द मानती हैं और सोई हुई बहिनों को भी इस आनन्दोत्सव में मिलने के लिये बाध्य (मजबूर) करती हैं।

दस वर्ष पहले स्त्रियों को उच्च विद्या पढ़ाना चाहिए— इस खयालवाले उँगलियों पर गिनने लायक इने गिने बिरले बन्धु थे, परन्तु आज हम देखती हैं कि सैकड़ों बन्धुओं का चित्त इस तरफ़ झुक चुका है। कितने ही बन्धु चाहते हैं कि जगह जगह कन्या-महाविद्यालय खुलने चाहिए। कन्याओं को भी लौकिक पारलौकिक शिक्षा उच्च प्रकार से मिलनी चाहिए।

अब जहाँ तहाँ सभा-सोसाइटियों में भी इस बात का विचार होने लगा है, इसी से समझना चाहिये कि हमारा दल बढ़ता जाता है।

चाहे यह खयाल जगत् की स्त्री-शिक्षा को देख कर उत्पन्न हुआ हो; चाहे हम लोगों के रोने चिल्लाने की मुनाई की गई हो, चाहे ज़माने का हेर फेर हो; परन्तु इतना अवश्य है कि समाज में स्त्री-शिक्षा की मशीन बनाने का खयाल तेज़ी से उठ गया है।

कन्या—महाविद्यालय ।

प्यारी बहिनो ! हमारे लिये कैसा सुखवर्षा प्राप्त है । आज बहुत से बन्धुगण हमारे खयाल से सहमत हैं, हम लोगों को क्यों न शीघ्रता से वृहत् कन्या-महाविद्यालय खोल डालने चाहिएँ । स्त्रियाँ पति से ज़ेवर बनवाने के लिए कहती हैं, फिर यदि देर हुई तो सोना लाने को कहती हैं । यदि सोना लाने में भी देर हुई तो कहती हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम किसी दूसरे से ही बनवा लें । बस कहीं आज्ञा मिल गई तो फिर क्या हैं भट से सुनार बुला कर सब काम ख़तम कर डालती ह । इस विचार से कि “कहीं नामंजूरी न हो जावे” इसी डर से कल की बजाय आज ही सब काम पूरा कर डालती हैं । बहिनो ! इन्हीं खयालों को आज विद्या प्रेम में परिणत करना चाहिए, मन के भाव फेरने चाहिये, परोपकार में सर्वस्व दे डालना चाहिये । दिन पर दिन भारत में अकाल पड़ते जाते हैं, कहीं प्लेग, कहीं हैजा, कहीं डाँके, कहीं चोरी इत्यादि इत्यादि विपत्तियों ने भारत को आरत कर डाला है । इस समय सोना न चाहिए, जो कल करना है उसे आज ही कर डालो ।

प्यारी विधवा बहिनो ! क्या अपना सारा धन लड़के गोद ले कर बहा देना ही आप लोगों ने इष्ट समझा है ? नहीं नहीं इस समय समस्त स्त्रियों को मिल जुल कर परम

मैत्रीभाव से कन्या-महाविद्यालयों के वास्ते तन, मन, लगा देना चाहिए । हमारी बहिनें पुत्र पुत्रियों के विवाह में दस दस हजार लगा देना सामान्य बात समझती हैं, तो क्या कन्या-महाविद्यालय के लिए दस हजार के शेर नहीं दे सकतीं ! अवश्य दे सकती हैं । हमें समझना चाहिए कि एक पुत्री यह भी हैं ।

यदि सौ बहिनें पाँच पाँच हजार इकट्ठा कर दें तथा अपने अपने पास से देवें तो सहज में ५ लक्ष रुपया विद्या-के लिये स्थान स्थान पर एकत्रित हो सकता है । यदि एक एक प्रान्त से दो दो बहिनें भी इस कार्य में अपना जीवन दे डालें तो स्त्री-संसार की अविद्या ४-६ वर्ष के अन्दर ही अपना मुंह छिपा कर निकल जाय ।

आज जहाँ हम सुनती हैं' अध्यापिकाओं के लिये पुकारें पड़ रही हैं । अध्यापिका विदुषी मिलना तो असंभव रहा, परन्तु अक्षराभ्यास कराने योग्य भी नहीं मिलती । जब कि न तो कोई उत्तम विद्यालय हो और न अध्यापिकाएँ मिलें तब कहिए कन्याएँ कहाँ से पढ़ लिख सकती हैं' । हों कहाँ से; बहिनें समझती हैं कि पुत्रों का काम पढ़ना और कन्याओं का काम गुड़िया खेलना व सास के घर जा नन्हें नन्हें हाथ पैरों में जेवर पहन कर इधर से उधर मारी मारी फिरना है । बहिनो ! यह हमारी भूल है-बड़ी भारी मूर्खता

है । इसी 'ख़याल' ने हमारे यहाँ से धर्म उठा दिया, सत्पात्र-दान उठा दिया, बड़ों की आज्ञा का पालन उठा दिया । कहाँ तक कहा जाय एक एक घर में दस दस बूढ़े करा कर महा भयंकर फूट को घुसा लिया है । ये सब ख़राबियाँ कन्याओं को अनपढ़ रखने से ही हुई हैं । अतएव हम लोगों को निद्रा भंग कर वृद्ध विद्यालय खोल कन्याओं को सुशिक्षिता बनाना चाहिये— उनको जीवन काल का पथ दिखलाना चाहिये, जिससे वे सुमार्ग पर चल कर स्वपर-कल्याण भली भाँति कर सकें ।

वर्तमान की छोटी छोटी कन्याशालाओं से यह क्षति पूरी नहीं हो सकती—इन पाठशालाओं में न इतनी हिन्दी पढ़ाई जाती है जिससे पुत्रियाँ ग्रन्थों का स्वाध्याय करके अर्थ समझ सकें, न हिस्साब किताब या और किसी प्रकार का कला-कौशल ही उचित रीति से बताया जाता है जिसका प्रतिफल कालान्तर में कुछ लाभदायक हो । केवल ग़लत सलत अक्षराभ्यास कराया जाता है जिसको घर बैठने पर कुछ दिनों में ही कन्याएँ भूल जाती हैं ।

संस्कृत या अँगरेजी का तो किसी पाठशाला में नाम ही नहीं है । इसी का यह परिणाम है कि स्त्री-समाज ज्ञानहीन, निपढ़ और कर्तव्यमूढ़ हो गई है ।

समाज में एक एक प्रान्त में एक एक विद्यालय ऐसा

होना चाहिए जिसमें कम से कम ४ लक्ष की पूँजी हो ।
जिसके व्याज से अच्छे अच्छे अध्यापक अध्यापिकाएँ
रखी जायँ ।

कम से कम १० वीं क्लाश तक की हिन्दी और अंगरेजी
की पढ़ाई हो ।

कम से कम मध्यमा तक संस्कृत-व्याकरण की
पढ़ाई हो ।

साहित्य में तीर्थ या शास्त्री तक का प्रबन्ध हो । इसके
अतिरिक्त पाक-विधि, रोग-चिकित्सा, सीना-पिरोना इन
सब बातों के लिए भो पृथक् पृथक् ब्लासें हों ।

धार्मिक ग्रन्थों का क्रम इसी पाठक्रम में इस प्रकार
रखा जाय जिसमें छः ढाला, नन्दवार्थसूत्र से लेकर ऊँची
कक्षाओं में उच्च कोटि के ग्रन्थ पढ़ाये जायँ ।

प्रत्येक विद्यालय के साथ दो छात्राश्रम हों—एक
कुमारी और सधवाओं के लिये, दूसरा विधवाओं के लिए ।

दोनों के नियम योग्य रीति से प्रतिपादन किये जायँ ।
विद्यालय का स्थान स्वच्छ जल वायुवाली जगह में हो ।
जब इस प्रकार के विद्यालय होंगे तभी स्त्री-जाति का अज्ञान
हट सकता है ।

यद्यपि इस विषय में रुपये का प्रश्न बड़ा प्रबल उपस्थित
होता है, परन्तु विचार और उत्साह के सामने यह कुछ

नहीं है। एक बार समाज के हृदय में आने की देर है। चन्दा अनेक प्रकार से हो सकता है। प्रत्येक पञ्चायत विवाह पर २) रु० का टैक्स रख दे, प्रत्येक दूकान पर आमद के हिसाब से कुछ कर लगा दिया जाय। कुछ ऊँची क्लासों में फ़ीस से वसूल कर लिया जाय, कुछ द्रव्य जाति के मुखिया भाई अपनी अपनी वक्तृता और ओज-स्विनी लेखनी से एकत्रित कर दें तो सहज में एक विद्यालय का धन इकट्ठा हो सकता है।

यदि विद्याप्रेम हो तो अनेक नर नारी बिना वेतन के सेवा करनेवाले भी मिल सकते हैं।

तात्पर्य यह है कि सत्य हृदय से प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य पुत्रियों के हितार्थ ज्ञान दान देने का दृढ़ संकल्प कर ले तो अवश्य संस्थाएँ खुल सकती हैं।

कन्या—महाविद्यालय का उद्देश्य और आदर्श इस प्रकार होना चाहिये:—

(१) अपनी भगिनियों और पुत्रियों को हिन्दी के माध्यम द्वारा संस्कृत और अन्य उपयोगी विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान करना। उन्हें नैतिक एवं धार्मिक-जीवन का अभ्यास कराना और गृह-कार्यों में निपुण कर के आदर्श माताएँ और सुयोग्य पत्नियाँ बनाने का प्रयत्न करना।

धार्मिक और पवित्र जीवन अर्पण करने के लिये सुविधाएँ प्रदान करना ।

(३) स्त्री-शिक्षा के निमित्त उत्तम साहित्य का निर्माण एवं प्रकाश करना और उपदेशिकाएँ भेजकर इस कार्य की उन्नति के लिये उद्योग करना ।



(विधवाओं का कर्तव्य)



वैधव्य जीवन के समान संकटापन्न जीवन शायद ही कोई दूसरा होगा। इस अवस्था में किन २ यम यातनाओं का सामना करना पड़ता है किस दुःख सागर के बहाव में विधवा पड़ जाती है इस विषय को लिखना व्यर्थ है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन सा घर ऐसा होगा जहाँ दो चार दुःखिनी विधवाएँ न होंगी।

इस दुरवस्था का अनुभव हमारी सहछों बहिनें प्रायः किया ही करती हैं। एक विधवा जितना मानसिक दुःख उठाती है व कौटुम्बिक विपत्तियाँ सहती हैं उसको लेखक जन्म भर लिखने पर भी नहीं लिख सकता। यहाँ पर हम उन कतिपय कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराना उचित समझती हैं जिन से विधवाओं के दुःख दूर हो सकते हैं। और वे इस मार्ग से चल कर परम सुखानुभव कर सकती हैं।

बहिनो पूर्वाचार्यों के ग्रन्थ से व वर्तमान के अनुभवी विद्वानों के कथन से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि दुःख

व सुख आत्मा के अनुभव पर निर्भर है ऊपर की बातें तो निमित्त मात्र हैं। जिस वस्तु को जैसी दृष्टि से देखा जायगा वैसा ही फल प्रतीत होगा। जो मृत्यु सांसारिक कायर प्राणियों को अत्यन्त भयावनी है वही शूरावीर साधु के लिये लीलास्थल है यद्यपि मृत्यु एक ही है परन्तु परिणामों के भेद से इसमें इतना भेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि विधवा होकर भी सांसारिक सुख विषय सुखों को न भूला जायगा तो अवश्य ही बहुत दुःख होगा। परन्तु यदि पति वियोग के पश्चात् अपने जीवन को धार्मिक जीवन और परोपकारी जीवन बना दिया जाय तो दुःख बहुत कम हो सकता है। फिर अपमान व दारिद्र्यता का जाल भी न विछ सकेगा। निम्न लिखित दृष्टान्त से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है—एक रोगी जिसके बड़ा भारी घाव हृदय स्थल पर व और किसी नाजुक जगह में हो गया हो और वहाँ पर चीरा लगाना हो तो डाक्टर सब से पहले उस रोगी को बेहोश करेगा, क्योंकि चैतन्यावस्था में उस दुःख को भोगने से रोगी मर जायगा। जब कि मूर्छित होने पर उस दुःख का अंशमात्र भी उसको नहीं मालूम होगा। कहिये चीरा तो उसी शरीर पर लगाया जाता है परन्तु मानसिक व्यथा के हटाने से ही कितना बड़ा भेद हो जाता है।

बस इसी तरह प्रत्येक दुःख भोगने का नियम है । अतएव अपनी यातना कम करने के लिए हमें अपनी वृत्तियाँ शांत बना लेनी चाहिये । प्रत्येक विधवा बहिन को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

(१) कमसे कम मातृभाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना ।

(२) धार्मिक ग्रन्थों को रुचि पूर्वक पढ़ना और उनका अर्थ समझ कर विरागता सीखना ।

(३) सधवा समय के अपने कोई गन्दे अभ्यास हों जैसे तमाखू खाना आदि तो उनको बिलकुल छोड़ देना ।

(४) जिनेन्द्र भगवान् की भक्ति को उत्तेजित करने के लिये मन बचन काय से दर्शन पूजन नित्य नियम से करना ।

(५) वैष—भूषा अत्यन्त साधारण रखना ।

(६) स्वदेशी कपड़े पहिनना । चर्खे के कते मिल सकें तो उन्हीं को पहनना ।

(७) मर्यादा का शुद्ध और हलका भोजन करना क्योंकि भोजन की शुद्धि पर ही मन की शुद्धि निर्भर है । यदि अमक्ष्य पदार्थों का भक्षण किया जायगा तो इंद्रियों का वश में रहना कठिन हो जायगा ।

(८) कुटुम्बियों से हिल मिल कर रहना स्वार्थ छोड़ कर सत्य हृदय से एक साधु के समान उनका हित करना, साथ देना ।

(६) अपनी योग्यतानुसार पढ़ने पढ़ाने व सेवा करने के किसी उभय कल्याणकारी काम में अपने को इस तरह फंसा देना कि उसी में बहुत सा समय व्यतीत होता रहे ।

(१०) यदि भोजन वस्त्र के निमित्त आजीविका करनी हो तो इसी प्रकार की सेवा सम्बन्धी आजीविका करना ।

वस इन नियमों से विधावर्ण सुखा हो सकती है । अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि समर्थ विधवाएँ तो इन कार्यों को कर सकती हैं परन्तु बालविधवाएँ जिनकी अवस्था समस्त के योग्य नहीं है वे अपने दुःखों को कैसे दूर करें । इस उत्तर में इतना कहना ही काफी है कि उनका भार उनके माता पिता के ऊपर है । या तो वे लोग इतनी छोटी अवोध अवस्था में विवाह न करें कि दुर्दैव होने पर पुत्रियाँ कर्तव्यपालन न कर सकें अथवा ऐसा योग मिलने पर माता पिता को उचित है कि अपनी समस्त शक्तियों का और धन को विधवा पुत्रियों के सुधारने में लगा दें । इसी प्रकार सासुओं को भी यहीं उपर्युक्त कर्तव्य करना चाहिये । इसके अतिरिक्त पंचायत इकट्ठी करके डाढ़ मार कर चीखने से बछाती पीट पीट कर रोने से कोई लाभ नहीं है ।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शपथ खा कर प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम बाल विवाह व बृद्ध विवाह नहीं करेंगे । तभी अवोध विधवाओं का होना रुक सकता है ।

कैसे दुःख का विषय है कि लोग पुत्रियों को समुचित रीति से अक्षराभ्यास भी नहीं कराते । उनको किसी तरह की योग्यता कराये बिना ही ८-९ वर्ष की अवस्था में जैसे जैसे विवाह कर ससुराल ढकेल देने हैं । इस रीति से स्त्रियों का दुःख और अज्ञान बढ़ता ही जाता है ।

हमारी विधवा बहिनों को चाहिये कि समाज की इन कुरीतियों को दूर करने में अपना जीवन लगा दें । दुःख शोक न कर आत्म कल्याण करें ।

श्रीमान् उमास्वामी का बचन है “दुःख करना शोक करना पछनाना रोना मारना विलाप करना । इन बातों के करने व कराने से असाता कर्म का बन्ध होता है । बहिनों यह असाता ही समस्त दुःखों को मिलाने वाली है यदि सुख शान्ति यम नियमों के साथ इस पर्याय को पूरा करोगी तो फिर ऐसा दुःख नहीं होगा ।

धर्म की वृद्धि करने से ही आत्मा मोक्ष के अनुपम सुख को पाता है । वैधव्य दीक्षा होने पर फिर सांसारिक प्रलोभनों में फँसना महा भ्रूखता है । किन्हीं लोगों का मत है कि विधवा विवाह प्रचलित करने से यह दुःख दूर हो जायगा, परन्तु यह नितान्त भूल है क्योंकि जीवन मरण का दुःख मनुष्य के आधीन नहीं है ।

जब असाता का उदय होता है तब पति का व पुत्र

पुत्री का वियोग होता है । इस कष्ट को कोई दूर नहीं कर सकता । जिन देशों में व जिन जातियों में यह कुप्रथा प्रचलित है उनमें स्त्रियाँ इस विषय में भारत महिलाओं से अधिक सुखी नहीं हैं । योरुप ऐसे देशों में भी बड़े २ घरानों की स्त्रियाँ अपना मान अपना सतीत्व नहीं खोती ।

अतएव हमारी विधवा बहनों को भी चाहिये इस कलिकाल में सावधानी से अपने शील की रक्षा करें । आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करके अन्त में समाधि मरण करें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करें ।



अशिक्षा का फल-स्वरूपिणी

झगड़ालू सास ।

यद्यपि वधू सदन काय्यों को थी सानन्द किया करती
अवसर टीका टिप्पणियों को थी न कदापि दिया करती
प्रतिदिन जग के बड़े सबेरे थी वह नहा लिया करती
चौका बर्तन और रसोई थी विघ साथ किया करती



सास जिठानी चरण दबाने भी अवसर से थी जाती
करती थी तत्काल जिसे थी करने की आज्ञा पाती
तो भी सास उसे देती थी तरह तरह के कष्ट कड़े
उसके पीड़न हित करती थी वह दिन रात अयत्न बड़े



पाती थी झगड़ा करने में वह आनन्द सदैव बड़ा
बनती थी अत्यन्त विकल जब होता था न कभी झगड़ा
झगड़े नये उठाने में ही वह दिन रात बिताती थी
शान्ति-विनाशन की चाहों में आप मरी वह जाती थी



झगड़ा ही उसका खाना था झगड़ा था उसका पीना

झगड़े के मोरुत-मण्डल में, उसका होता था जीना
रोगों से चंगी होती थी जब थी झगड़ा कर पाती

झगड़े के विन वे-चैनी से-वह थी कृश-तन हो जाती

ॐ

झगड़े की ही चिन्ता में वह सोती जगती रहती थी

बैठी लैटी झगड़े की ही धारा में वह बहती थी
रेंगी रंग में झगड़े के थी झगड़ा उसका प्यारा था

उसके मुख-दर्शन विन उसका दुखमय जीवन सारा था

ॐ

झगड़ा आँखों का तारा था परम दुलारा था झगड़ा

वह गोपी थी और रेंगीला मोहन प्यारा था झगड़ा
उसकी झपटों में जो पड़ता वह कम्पित होता मन में

सिंहिनि सी आखेट-रता वह रहती थी गृह-कानन में

